

**Government of Jammu & Kashmir
Industries & Commerce Department
Civil Secretariat, Jammu**

Subject: - Jammu and Kashmir Industrial Policy 2021-30.

Reference: Administrative Council Decision No.46/7/2021 dated 09.04.2021

Government Order No : 117 -IND of 2021

D a t e d : 19 . 04 . 2021

Sanction is hereby accorded to the adoption of Jammu and Kashmir Industrial Policy 2021-30 as per annexure appended to this order for its implementation with effect from 01-04-2021.

All industrial units coming into commercial production from the date of implementation of this Policy shall be entitled to avail incentives as provided in the Jammu and Kashmir Industrial Policy 2021.

All existing units and existing units undertaking substantial expansion shall be entitled to incentives provided in this Policy.

The existing units eligible for incentives under the erstwhile Industrial Policy 2016 shall be allowed to avail the same under the Industrial Policy 2016 till 31-03-2026.

Previous orders, if any issued, which are inconsistent with this Policy shall stand superseded by this order to the extent of inconsistency.

By order of the Government of Jammu and Kashmir.

Sd/-

(Ranjan Prakash Thakur)

Principal Secretary to the Government

No. IND/DIC-20/2021

Dated: 19.04.2021

Copy to the :-

1. All Financial Commissioners.
2. Director General of Police, J&K.
3. Principal Secretary to the Lieutenant Governor.
4. All Principal Secretaries to Government.
5. Principal Resident Commissioner, J&K Government, New Delhi.
6. Chief Electoral Officer, J&K.
7. All Commissioner/ Secretaries to the Government.
8. Joint Secretary (J&K), Ministry of Home Affairs, Government of India.
9. Divisional Commissioner, Jammu/Kashmir.
10. Director General, J&K Institute of Management, Public Administration and Rural Development, Jammu.
11. Chairman, J&K Special Tribunal.
12. All HoD's of Industries and Commerce Department.
13. All Deputy Commissioners.
14. Director, Information.
15. Director, Archives, Archaeology and Museums.
16. General Manager, Government Press, Jammu/Srinagar.
17. Private Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor.
18. Private Secretary to the Chief Secretary.
19. Private Secretaries to Advisor (F)/(B)/(BK) to Lieutenant Governor.
20. Pvt Secy to Principal Secretary to the Government, Industries and Commerce Department.
21. In-charge website, GAD/ I&C Department.

(Sartaj Hussain Madni)

Deputy Secretary to the Government

Jammu and Kashmir Industrial Policy 2021-30

Signature

Contents

1. INTRODUCTION	2
2. DEFINITIONS	5
3. OBJECTIVES AND STRATEGY	7
4. PACKAGE OF INCENTIVES	15
5. EASE OF DOING BUSINESS	20
6. CHANGE OF CONSTITUTION	24
7. ANNEXURES	25



1. Introduction

- 1.1. Jammu & Kashmir is the newly formed Union Territory of Indian Union created under the Jammu & Kashmir Reorganization Act, 2019 on 31st October 2019. The Union Territory (erstwhile Jammu & Kashmir State) has made progress in Industrial development over the last decades.
- 1.2. Jammu & Kashmir announced its first Industrial policy in 1995 and substituted by another policy in 1998. However, the Comprehensive Industrial Policy was announced in the year 2004 and later in 2016.
- 1.3. The Industrial Policy 2016 aimed to attract substantial Investment in Industry for production of Goods, Services and employment generation through optimal utilization of available resources including Human Resource. The Policy was more focused towards the traditional cottage Industries namely Handicraft and Handloom to ensure economic upliftment of the artisans, weavers and traders in this sector. Now, the Government has notified J&K Wool Processing, Handloom and Handicraft Policy 2020 which focuses on requirements of Handloom and Handicraft sector.
- 1.4. The Government of India through Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT), has been offering incentives under different packages such as Special Package I in 2002, Special Package II in 2012 and IDS 2017. Further various incentives have been offered under recently launched 'New Central Sector Scheme for Industrial development of Jammu & Kashmir' vide Government of India notification F.No. 1(1)/ 2020-SSS, dated 19th Feb 2021.
- 1.5. In an era of Competitive Federalism, Industrialization holds the key to foster economic growth, create employment opportunities and bring prosperity to the people. The states and Union Territories (UTs) are competing with each other for attracting investments to foster growth.

Department of Industries & Commerce has been active in bringing interventions to make the business environment more investment friendly in consonance with National and international standards.

- 1.6. Department of Industries and Commerce, Government of Jammu & Kashmir is responsible for all round industrial development of the Union Territory (UT). It acts as a catalyst to modernize & strengthen the industrial units to make them globally competitive.
- 1.7. The industrial landscape of the UT is dominated by MSME and it plays a crucial role in propelling industrial growth and economy in UT as they contribute around 8% to the GSDP and employ the largest number of people in the manufacturing and services sectors. Approx. 25,000 MSMEs that are operational in the UT contribute almost 60% of the total investment and 90% of total employment in industrial sector in the UT. It is thus imperative that MSME sector be further supported through policy interventions.
- 1.8. The Department assists Large and MSME units through fiscal and holding to achieve employment generation and utilization of local resources. Department through its Directorate(s) in Jammu & Kashmir, Jammu and Kashmir Handicrafts and Handloom Department, Jammu & Kashmir State Industrial Development Corporation(s), Jammu and Kashmir Small Scale Industries Development Corporation Limited, Jammu and Kashmir Industries Limited, Jammu & Kashmir Handicrafts and Handloom Development Corporation, Jammu & Kashmir IT Infrastructure Development Company, Jammu & Kashmir Trade Promotion Organization and Industrial Development Corporation(s) are striving to create a vibrant eco system for Industries in UT.
- 1.9. 'Jammu & Kashmir Industrial Policy 2021 aims to address the challenges faced by industry and to create a Sustainable, Balanced, Progressive and Competitive ecosystem in the UT.
- 1.10. There is scope in Jammu & Kashmir for taking up of manufacturing and service activities in the field of Food processing,



Pharmaceuticals, high grade raw silk, woolen fabrics, computer/electronics and Information Technology. Jammu & Kashmir has significant potential of growth in various service sectors such as Education, Tourism, Health, Information Technology and Skilling

- 1.11. The Jammu and Kashmir Industrial Policy 2021 is aimed at creating a conducive ecosystem for industry, which attracts investments in focus sectors leading to sustainable, equitable, environment friendly and balanced industrial development thereby creating employment opportunities for the youth, income generation and overall development of the region.


2. Definitions

Under this Policy, unless otherwise provided under various schemes of DPIIT, Ministry of Commerce and Industries:

- a) **'UT'** means the Union Territory of Jammu & Kashmir.
- b) **'Policy'** means the Jammu & Kashmir Industrial Policy 2021-30.
- c) **'MSME'** means Enterprises engaged in the manufacturing, services, processing or preservation of goods as per the MSME Development Act 2006 read with Ministry of MSME Notification dated 1st June 2020.
- d) **'Eligible Industrial Units'** means a unit as defined under clause 4.1 of this policy
- e) **'New unit'**
 - 1) For manufacturing sector means a unit which commences production on or after 01.04.2021.
 - 2) For Service sector means a unit which commences operation on or after 01.04.2021.
 - 3) A new unit will be required to fulfil the following conditions:
 - i. It is not formed by splitting up, or reconstruction of a business already in existence.
 - ii. It is not formed by transfer of plant or machinery previously used for any other purpose to the new unit.
 - iii. It has not been relocated from elsewhere and/or is not an existing unit reopened under a new name and style.
- f) **'Existing unit'** means a unit which has commenced commercial production/operation on or before 31.03.2021.
- g) **'Manufacturing units'** means a unit which carries out processing of raw material or inputs in any manner that results in emergence of a new product having a distinct name, character and use and the term "manufacturing unit" shall be construed accordingly."
- h) **'Service Unit'** means a unit providing "services" defined as anything other than goods, money and securities but includes activities relating to the use of money or its conversion by cash or by any other mode, from one form, currency or denomination, to another form, currency or denomination for which a separate consideration is charged.
- i) **'Substantial expansion'** means 'an additional investment of minimum twenty-five percent of the total amount of investment already made in the existing unit' in plant and machinery (for manufacturing sector), or

construction of building and other durable physical assets (for service sector) for the purpose of enhancement of capacity, modernization, diversification or additional line of activity.

- j) **'Working Capital'** is difference between Current Assets and Current Liabilities. It is the capital required for the smooth and uninterrupted functioning of the unit and is used to finance its day to day needs, such as buying raw materials.
- k) **'Raw Material'** means any raw materials actually required and used by an industrial unit in manufacturing of the finished goods for which it is requested.
- l) **'Plant and Machinery'** for the purpose of this policy will mean
 - i. For Manufacturing unit shall cover the newly purchased industrial plant and machinery as erected at site. Relocated/Recycled/Refurbished plant and machinery is not eligible for assistance under the scheme. The purchase of machinery should be from open market at normal market price. The purchase should not be made from a Related Party and it will be ensured that purchases have been made following an Arms-length pricing.
 - ii. For Service sector industrial unit shall include **'Building and other durable physical assets'** which shall cover new building and other durable physical assets for a service sector unit where purchases have been made following an Arms-length pricing.
- m) **'Industrial Development Corporation'** means the J&K SIDCO, J&K SICOP or any other corporation(s) as may be notified by Government.
- n) **'Arm's length price'** as defined under the provisions of Income Tax Act, 1961.
- o) **'Assessed Capacity'** means capacity as has been assessed by the General Manager of concerned District Industries Centre or any other officer authorized in this behalf by Director, Industries & Commerce.



3. Objectives and Strategy

- 3.1. The new Jammu & Kashmir Industrial Policy 2021 aims
- a) To attract substantial investment across focus sectors
 - b) Creation of jobs for the youth
 - c) Promoting development of backward regions
 - d) Maximizing growth opportunities by optimum utilization of the available resources
 - e) Creating backward and forward linkages
 - f) Harnessing the talents and skills of the people and ushering prosperity in every household
 - g) To nurture existing industries


- 3.2. While creating an enabling work environment for industrial development, the policy emphasizes on pollution and environmental safeguards to ensure ecological stability and sustainable development.

3.3. **Vision**

The vision for Industrialization of Jammu & Kashmir is "to transform Jammu & Kashmir from an aspirational to an industrialized territory and Unlocking its potential through Convergence (UT and Central) and Collaboration (Industry and Government)". The industry policy framework will be driven by the slogan – "Jammu & Kashmir – Tradition, Growth and Transformation". The policy intends to provide a regulatory environment within a supportive framework of Ease of Doing Business.

3.4. **Mission**

The envisaged mission is to drive industrial growth in an environment of stability wherein dynamic competition is allowed to help in the betterment of traditional core sectors, such as Agriculture and allied sectors, Food processing, Tourism, Handicrafts and Handlooms, Health, Education etc. as well as New-age Technology driven sectors like Pharmaceuticals, IT/ITes, Skill development etc. leading to economic vibrancy and human resource development dividends for the high potential Union Territory of Jammu and Kashmir.



3.5. Core Values

- a) The Government shall be a facilitator, Partner, Provider, Collaborator, Promotor
- b) The Industrial Development shall be Sustainable, Balanced, Progressive and Competitive
- c) Entrepreneurs will thrive in a progressive business regulatory environment
- d) Benefits of industrialization should reach marginal and socially disadvantaged sections of Jammu & Kashmir
- e) Assistance to MSME and Large Units
- f) More emphasis on Zero Effect - Zero Defect productivity
- g) Industrial development will lead to creation of jobs benefitting local youth
- h) Become Achiever from Performer in Sustainable Development Goals implementation
- i) Environment will be protected, and any potential impacts shall be mitigated

3.6. Aims

- a) To position Jammu & Kashmir as Aspiring Investment Destination in India in next ten years.
- b) Focus on industrial investments in the UT to spur the manufacturing momentum and create new employment opportunities.
- c) Promoting ancillarization and cluster development approach to attain optimum utilization of resources across the Jammu & Kashmir.
- d) Ease of doing business and creation of conducive business environment by ensuring service delivery in a time bound manner digitally.
- e) Identifying sector strengths of each region and promote sector specific parks.
- f) To facilitate access to quicker and affordable credit for industries
- g) To promote sector specific approach and value addition in production.
- h) To support the industries in connecting with global and national market.
- i) Inviting reputed Industrial houses and potential investors from

within and outside the UT to promote Jammu & Kashmir as an ideal Investment destination.

- i) Organizing Road shows and Expos for creating Backward and Forward Linkages for industries, within and outside Jammu & Kashmir, via the Department of Industries and Commerce's Trade promotion wing, JKTPO who will work in collaboration with Industrial Associations like FICCI, ASSOCHAM, CII, PHD Chamber of Commerce and Industry etc. for promotion of industrial investment in Jammu & Kashmir.

3.6.1. To provide basic Infrastructure and Last Mile Connectivity for Industrial Units

- a) Fast track completion of proposed infrastructure projects and preparing infrastructure development vision for Jammu & Kashmir
- b) Suitable steps shall be taken for establishment of Inland Container Depot/ Rail Freight Corridors/ MMLPs.
- c) Leveraging Government of India grant for the projects of national importance.
- d) Creation of Critical Infrastructure Fund for last mile connectivity
- e) Creation of private industrial parks and extension of infrastructural support
- f) Providing and Managing Infrastructure amenities such as Interior roads, Street lighting, Solid Waste Management, Sewerage Systems, Warehouses, Parking facilities, Sewerage Treatment Plant, Effluent Treatment facilities etc. in Industrial.
- g) Special Focus on Development of Infrastructure through Public Private Partnership.
- h) The Government will ensure regular and adequate supply of power to the industrial estates, parks and growth centres etc.
- i) Creation and development of Special Economic Zones.

3.6.2. To promote regionally balanced, environmentally sustainable and inclusive industrial growth

- a) Categorization of regions to promote balanced and inclusive industrial growth.
- b) Special fiscal incentives to Industrial units in under-developed regions.
- c) Promoting labour Intensive Industries.
- d) Supporting revival of sick and closed units.

3.7. Duration of the Policy

- 3.7.1. Jammu & Kashmir Industrial Policy 2021 shall be valid for a period of 10 years from the 01.04.2021.
- 3.7.2. The Government of Jammu & Kashmir can extend the time period of the policy.
- 3.7.3. The Government of Jammu & Kashmir can amend or clarify to remove difficulty in implementation of the policy.

3.8. Land Bank

- 3.8.1.1. Jammu & Kashmir Government envisages to attract investment in manufacturing as well as services sector. Since availability of adequate land is a pre-requisite for setting up of industry, the Government is developing State-of-the-Art industrial land bank across the Jammu & Kashmir
- 3.8.1.2. Allotment of Land in Industrial Estates will be as per Jammu & Kashmir Industrial Land Policy 2021.

3.9. Land Allotment and Governance

Land allotment shall be governed by the Jammu & Kashmir Industrial Land Allotment Policy 2021-30.

3.10. Creation of Industrial Estates, Parks and Clusters

- 3.10.1. The Department of Industries and Commerce, Jammu & Kashmir would initiate action to develop Industrial Estates/ Parks on the ready to occupy model to attract investments. Government will develop sector specific parks and clusters.
- 3.10.2. Effective integration between industry and infrastructure shall be endeavoured by developing Industrial corridors having world-class infrastructure such as High-Speed Transportation Network, Logistic Parks, Common Facility Centres, etc.

3.11. Encouraging Private Industrial Estates and Parks

The Department of Industries and Commerce, Jammu & Kashmir shall encourage the development of private industrial estates to provide state-of-the-art industrial infrastructure to the industry by providing a separate incentive package.

- e) Promoting Zero effluent discharge plants.
- f) Ensuring environmental sustainability by providing incentives for green industrialization.
- g) Promotion of exports from districts by leveraging 'District as Export hub' scheme.

3.6.3. Special emphasis on skill development and to create high level of employment generation

- a) Encouraging industry and university collaboration for skill development of local youth.
- b) Industry oriented curriculum in government colleges/ Institutions and universities.
- c) ITI s and Polytechnics to offer future ready courses.
- d) To encourage investments in capacity building programs for creating an industry ready human resource pool.
- e) Providing additional fiscal support to employment based Mega/ Anchor projects thereby generating higher employment.
- f) Entrepreneurship development for the local youth through EDI
- g) Setting up of Start-ups and promoting technology transfer.

3.6.4. Minimum Regulation- Maximum Facilitation and Digital Interventions

- a) Government would act as facilitator rather than the regulator.
- b) All UT related services, consents and permissions required to set up and operate an industry in Jammu & Kashmir shall be provided through Single Window Portal.
- c) Strengthening Single Window Cell by involving the concerned department wherever necessary with respect to investments as well as concern and issues that the industry may have encountered.
- d) Directorate of Industries, Jammu & Kashmir will coordinate with Industrial Associations for Ease of Doing Business initiatives.
- e) Implementation of Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) District and State level reforms.
- f) Government of Jammu & Kashmir would opt for Block chain, Internet of Things, Artificial Intelligence, Robotics and other technologies for Ease of Administration and Governance.

3.12. Environment Protection

- 3.12.1. The Government shall encourage environment protection through setting up of Green Industries and adoption of green technologies. Units/ projects which undertake installation of online pollution control devices shall be incentivized under this policy. Accordingly, the Government will encourage units to undertake sustainable/green initiatives and will utilize Renewable energy.
- 3.12.2. Special attention shall be paid to environment protection by way of installation of Effluent Treatment Plants (ETPs), hazardous waste management systems, zero discharge processes, energy conservation measures, solid waste disposal plants, recycled water utilization, renewable energy utilization and dense plantation. Installation of such plants under PPP mode shall be encouraged with grant of incentives as are applicable under the policy or as may be prescribed under the procedural guidelines.
- 3.12.3. Setting up of red category industries in certain cases shall be allowed subject to adoption of all environmental protection measures, installation of on-line pollution control equipment/devices and adherence to prescribed measures in relation to location of such units and environmental audit under the overall supervision of Pollution Control Board.
- 3.12.4. Water Supply and Industrial Waste Management:
Water is a scarce resource and optimal utilization of water by industry would be actively encouraged. Industries would be encouraged to recycle, and reuse water generated from industrial processes after adopting appropriate technologies and techniques, for which special incentives shall be provided. Accordingly, emphasis will be to:
- a) replenish and recharge ground water by adopting "Rainwater Harvesting",
 - b) recycle & re-use water recovered from industrial processes
 - c) opting for green and renewable power
 - d) solid waste management

Besides, the Government while developing any new Industrial Estate/

Cluster shall make all possible endeavours for establishment of Common Effluent Treatment Plant (CETP) and other common environment protection measures for treatment of industrial waste.

3.12.5. Energy conservation measures

Efforts will be made to educate industry stakeholders about low-carbon, low waste, non- polluting and safe technologies.

- a) Encourage industries to go for carbon auditing
- b) Use of energy efficient equipment in industries will be encouraged
- c) Industries with connected load of above 100 KW will be encouraged to adopt energy auditing
- d) Facilitate industries in implementing clean technology projects utilizing various Government of India Schemes

3.13. Revival of Sick Units

3.13.1.1. The guidelines for rehabilitation/ revival of Micro, Small and Medium enterprises (MSME) notified by the Ministry of MSME vide helps in early detection of distress and rehabilitation/ exit of MSME in a more structured and transparent manner. These guidelines along with Framework for Revival and Rehabilitation of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) issued by the Reserve Bank of India in consultation with the Ministry of MSME vide RBI/2015-16/338FIDD.MSME & NFS.BC.No.21/06.02.31/2015-16 dated 17.03.2016 shall be applicable for revival and rehabilitation of the Sick units.

3.13.1.2. In case where the unit requires additional finance for revival, following procedure shall be applicable:

3.13.1.2.1. The concerned General Manager shall deal with the case as per the provisions of Govt. Order No: 47 IND-1999, dated 10/02/1999 in respect of the units where total assistance requirement does not exceed Rs. 5.00 Lac. These cases shall be referred to District Level Revival Committee (DLRC) for declaring the unit as sick.

3.13.1.2.2. After approval of the DLRC the General Manager shall recommend the case to the Director Industries & Commerce concerned for sanction of soft loan. In case of the units



where the financial assistance requirement exceeds Rs. 5.00 Lac, the same shall be recommended to the concerned Directorate of Industries & Commerce for declaring the unit as sick and subsequent placement of such case(s) before State Level Revival Committee (SLRC) for approval of requisite funds in each case.

3.13.1.2.3. The Director of Industries and Commerce shall there after forward the case(s) to concerned Bank for disbursement of the financial Assistance as a soft loan.

3.13.1.2.4. The Government shall keep a provision of a corpus fund to be placed at the disposal of the Lead Bank of the UT for meeting the requirement of differential amount of interest to be reimbursed to the concerned bank incurred on account of disbursement of soft loan.

3.14. Focus Sectors:

The list of focus sectors is as follows:

- 1) Manufacturing
- 2) IT & ITeS
- 3) Agriculture and Food Processing
- 4) Healthcare and Pharmaceuticals
- 5) Infrastructure and Real Estate
- 6) Herbal and Medicinal Plants
- 7) Milk Poultry and Wool Production
- 8) Education and Skill Development
- 9) Tourism and Hospitality
- 10) Film Tourism
- 11) Horticulture and post-harvest management
- 12) Renewable Energy
- 13) Handloom and Handicrafts
- 14) Agriculture, Mulberry and Production of Silk
- 15) Export oriented units
- 16) Any other sector that is notified by Government of Jammu & Kashmir



4. Package of Incentives

4.1. Eligibility

- 4.1.1. All eligible Manufacturing and Service sector units will be granted incentive(s) under this scheme as defined under clauses of respective incentives of this policy.
- 4.1.2. The incentives shall not be applicable to the units which manufacture the products listed in the Annexure -I (Negative List for Manufacturing Sector).
- 4.1.3. The incentives shall be applicable only in case of such service units from sectors as listed in the Annexure -II (Positive List for Service Sector).
- 4.1.4. The incentives shall be disbursed only after certification of commencement of Production/Operation of the unit by the concerned GM DIC.

4.2. Subsidy on DG set

- 4.2.1. All new units; existing units and existing units undertaking substantial expansion will get 100% subsidy on purchase and installation of a single new DG set having capacity ranging from 10 KW to 2000 KW, with the capping of Rs. 40 lakhs in Zone A and Rs. 45 lakhs in Zone B. The incentive can be availed only once under the Policy.
- 4.2.2. In case of units under going substantial expansion, the unit holder shall be incentivized on DG Sets only on incremental powerload in case the incentive has already been availed by the unit on existing Power Load (Incremental Power load shall mean, Power load comprising of expansion part only).
- 4.2.3. If the existing unit undertakes Substantial Expansion but has not availed the DG Set subsidy earlier, the DG Set subsidy shall be applicable on aggregate power load of the unit (Aggregate power load shall mean total power load of the unit after Substantial Expansion)
- 4.2.4. The subsidy shall be available to the unit after it has been verified that the DG set has been installed in the unit.
- 4.2.5. The incentive shall, however, be extended, subject to installation of Retrofitted Emission Control Devices/ Equipment, as per the condition

laid down by the Hon'ble National Green Tribunal for DG Sets of 125 KVA capacity and above.

4.2.6. The amount of subsidy on purchase of one (01) DG set shall be paid to the Unit only through a bank (or the concerned financing agency, if any) even if the promoter may not have taken any loan for purchase of the DG set.

4.2.7. Existing units not undertaking substantial expansion which have availed this incentive earlier will not be eligible for this incentive under the Policy.

4.3. Exemption of Stamp Duty and Court Fee

4.3.1. New units and existing units undertaking substantial expansion shall be eligible for 100% exemption of Stamp duty on land transactions in Government Industrial Estates, including lease deed and mortgage deed.

4.3.2. New units and existing units undertaking substantial expansion shall be eligible for exemption of payment of court fee for registration of documents relating to land transactions.

4.4. Subsidy on procurement of Quality Certificate

4.4.1. New units; existing units and existing units undertaking substantial expansion, procuring Quality Certification like ISO, ISI, BIS, FPO, BEE, AGMARK, ECOMARK, ZED Rating etc. shall be given a subsidy of 30% of the total cost incurred for obtaining the said certificate, subject to a maximum of Rs 2 lakhs, as certified by the Chartered Accountant. This incentive, however, can be availed only once.

4.4.2. Existing units not undertaking substantial expansion which have availed this incentive earlier will not be eligible for this incentive.

4.5. Subsidy on Automation

4.5.1. New units, existing units and existing units undertaking substantial expansion incurring expenditure on automation / software / hardware /Business process re-engineering (BPR) through computers/IT/ Online Pollution Control Devices shall be provided subsidy of 25% of expenditure incurred on the same up to a limit of Rs. 2 lakhs, after due verification by the Industries& Commerce Department/Pollution



Control Board, if the same has not been claimed under Capital Investment Incentive (CII) or similar subsidy scheme of the Central or Jammu & Kashmir Government.

4.5.2. Existing units not undertaking substantial expansion which have availed this incentive earlier will not be eligible for this incentive.

4.6. **Subsidy on Pollution Control Devices**

4.6.1. New units; existing units and existing units undertaking substantial expansion shall be eligible for subsidy on the cost of new Pollution Control Devices (PCD), @ 60% of the cost of Pollution Control Devices subject to a maximum of Rs. 50 lakhs, if this has not been already claimed under Capital Investment Incentive (CII) or similar subsidy scheme of the Central or Jammu & Kashmir Government.

4.6.2. Existing units not undertaking substantial expansion which have availed this incentive earlier will not be eligible for this incentive.

4.7. **Green and Environment Protection Initiative**

4.7.1. New units; existing units and existing units undertaking substantial expansion shall be eligible 50% subsidy on the expenditure incurred on installation of new equipment of rainwater harvesting, wastewater recycling, zero discharge process/ solid waste management.

4.7.2. Existing units not undertaking substantial expansion which have availed this incentive earlier will not be eligible for this incentive again.

4.8. **Turnover Incentive**

4.8.1. **For existing Micro units**, 3% Turnover incentive shall be provided for all existing units registered under GST in the UT of Jammu & Kashmir on or before 31.03.2021. Units can avail incentive for 5 years, maximum up to Rs. 10 lakhs per annum.

4.8.2. **For existing SME and Large Units**, 2% Turn over incentive shall be provided for all existing units registered under GST in the UT of Jammu & Kashmir on or before 31.03.2021. Units can avail incentive for 5 years, maximum up to Rs. 50 lakhs per annum.

4.8.3. Units can avail the incentive for 5 consecutive years within the applicable time period of this policy. This incentive shall however be subject to an annual overall capping of Rs 50.00 crore.

4.9. SGST Incentive

- 4.9.1. Existing units registered under GST in the UT of Jammu & Kashmir on or before the date of 31.03.2021 shall be eligible for 100% Net SGST reimbursement for 10 years from 01.04.2021.
- 4.9.2. The negative list of activities under which a business enterprise shall not be allowed to avail the benefit, shall be reviewed from time to time.

4.10. Sanction of Incentives under Jammu & Kashmir Package

- 4.10.1. All the incentives under the Jammu & Kashmir Package up to Rs. 5.00 lakhs shall be sanctioned and disbursed by the concerned General Manager.
- 4.10.2. The incentives above 5.00 lakhs and up to 50.00 lakhs shall be sanctioned by the Divisional Level Committee of respective Directorates of Industries and Commerce, Jammu/Kashmir.
- 4.10.3. The incentives above 50.00 lakhs shall be sanctioned by the UT Level Committee of Department of Industries and Commerce, Jammu and Kashmir.
- 4.10.4. The composition of committees shall be detailed in the guidelines.
- 4.10.5. The sanctioned amount shall be disbursed by concerned General Manager within a period of 15 days from date of sanction.
- 4.10.6. The committee shall meet once in a month for each district in the division. The concerned General Manager shall submit the cases, which are required to be placed before the Divisional Level Committee, to the Director, Industries and Commerce within the period of 30 days and the same shall be disposed of by the Divisional Level Committee within one month.
- 4.10.7. 10% audit of all incentive claims sanctioned at District level shall

- be conducted by Directorate of Industries and Commerce Jammu/ Kashmir before disbursement. The Director Industries & Commerce concerned shall constitute a committee of officers for the purpose.
- 4.10.8. The incentive approval committee viz. District Level, Divisional Level and UT Level reserves the power to reject the claim.

4.11. Marketing Support

With a view to create more business opportunities for Micro and Small enterprises, the Jammu & Kashmir Government intends to initiate the following measures:

- 4.11.1. Industrial trade fairs shall be organized, and Jammu & Kashmir's participation would be promoted on a regular basis at national and international level.
- 4.11.2. Jammu & Kashmir would organize marketing events for MSMEs like buyer-seller meets, trade fairs, exhibitions etc. All the MSMEs and other industrial units shall be encouraged to participate in such marketing events.
- 4.11.3. MSEs goods and services shall be procured as per the policy of Government of Jammu and Kashmir as issued and amended from time to time.
- 4.11.4. Local filter has been provided in the GeM portal in order to give boost to the local manufacturers.

4.12. Entrepreneur and Skill Development Fund

- 4.12.1. An entrepreneur and skill development fund shall be created for incorporating entrepreneurial skills to the local youths for sustained industrial growth in the UT. 10% of the premium charged by Industrial Corporations as per Land Policy for allotment of the land to the entrepreneurs shall be transferred to this Fund. The entrepreneurs shall be provided training and skill development in industrial entrepreneurship from JK Entrepreneur Institute (JK EDI) and other premier Institutes of the country.

4.13. Incentives from Government of India

The details of New Central Sector Scheme for Industrial Development of UT of Jammu & Kashmir have been provided in **Annexure III**.

- 4.14. Procedures for the purpose of this policy, wherever required, shall be

5. Ease of doing Business

- 5.1. The Jammu & Kashmir has been taking multiple initiatives in Ease of Doing Business. Jammu & Kashmir Single Window (Industrial Investments and Business Facilitation), Act 2018 focusses on creating an investor friendly environment and improve ease of doing business in the Jammu & Kashmir. This is being facilitated by providing accelerated and time bound grant of various licenses, permissions & approvals, promoting industrial development and facilitating new investments as well as by simplifying the regulatory framework by reducing procedural requirements and rationalizing documents.
- 5.2. Several important reforms and measures with departments like Health & Drug Controller, Agriculture, Pollution Control Board, Public Health Engineering, Labour, Forest, Power Development Department, Fire, High Courts, Housing & Urban Development, Industries and Commerce in areas like labour, property registration, single window clearance system and central inspection framework are being implemented under District level BRAP, leading to a smoother regulatory ecosystem.
- 5.3. All units will be granted clearances under the provisions of Jammu & Kashmir Single Window (Industrial Investments and Business Facilitation), Act 2018 and will be governed by the Committees under the Act.
- 5.4. Invest JK web portal, is an initiative of Government to facilitate Ease of Doing Business. It will lead to a paradigm shift in the role of the Government from being regulator to that of a facilitator. Invest JK is being promoted as a brand which will help in attracting global investments and Facilitating Investments. Jammu Kashmir Trade Promotion Organization (JKTPO) will give all backend support to ensure the promotion of brand 'Invest JK' and will work jointly with National & International Industries Associations/ Forums by organizing and participating in various Summits, Fairs, Exhibitions, Road shows etc.
- 5.5. **Registration of Units**
 - 5.5.1. New units intending to avail incentives under this policy will have to get provisional registration from GM DIC (Concerned)
 - 5.5.2. The Date of Production /Date of Operation has to be authenticated by

the GM of concerned DIC in permanent registration

5.6. Assessment

- 5.6.1. The basic assessment of raw material and finished goods shall be done within fifteen (15) days from the date of issuance of Date of Production.
- 5.6.2. Self-certified documents as per prescribed format in respect of consumption of raw materials and finished goods produced during the year shall be submitted to concerned GM, District Industries Centre at the end of each financial year by all the units.
- 5.6.3. 10% of Self-certified documents shall be inspected and a report shall be submitted to the Director, Industries and Commerce within a period of 2 weeks from the date of inspection.

5.7. Setting up of New Unit/ Substantial Expansion units on the allotted plots

The request for substantial expansion/new unit on the land already allotted shall be considered only in case of units which have already come into production and shall be permitted by the respective Committees as per procedures laid down in the guidelines

5.8. Change of line of activity

The powers to grant permission for change in line of activity shall lie with the General Managers and same shall be done within 10 days. The application is to be supplemented with the requisite documents as detailed in guidelines.

5.9. De-registration of Units

The powers to de-register the units shall be vested with concerned Director, Industries & Commerce. The applicant shall have to apply to the General Managers with all requisite formalities who shall forward the same to the Director, Industries & Commerce. The whole process shall be completed within a period of 21 days - 07 days for concerned General Manager DIC and another 14 days for concerned Director, Industries & Commerce. The concerned General Manager shall not insist for the formalities for which the Industries Department is not responsible, and they shall obtain only an affidavit duly attested by

the Judicial Magistrate/Executive Magistrate.

5.10. Investment Facilitation Cell

In order to facilitate investment, a special cell "Investment Facilitation Cell" shall be created within the Directorate of Industries and Commerce, as per the Single Window System (Investment Promotion and Facilitation) Act, 2018 whose mandate shall be to facilitate investors to invest in the UT.

5.11. Investment Promotion Agency

JK Trade Promotion Organization shall be the Investment Promotion Agency for Jammu and Kashmir for promotion of investment and exports.

5.12. Information Hubs


District Industries Centres will also function as Information Hubs for the entrepreneurs to enable access to the UT and National information hubs and markets, thereby enhancing productivity and exports. JKTPO will also facilitate in dissemination of Macro level Sectoral Information for the entire UT of J&K.

5.13. Setting Up of Industrial Grievance Forums

5.13.1. Industrial Grievance Forum shall work under the supervision of Director Industries & Commerce (concerned).

5.13.2. "Industrial Grievance Forums" to speedily redress grievances and solve inter-departmental related issues faced by entrepreneurs will be set up under the direct supervision of the concerned Director (Industries and Commerce) and General Manager, District Industries Centre.

5.13.3. These forums shall serve as a nodal point of appeal for any grievance/ dispute/complaint faced by the industry Stake holders and initiate immediate action to ensure grievance redressal in a time bound manner. Representatives of Chamber of Commerce and Industry/ Federation of Industries of Kashmir and Jammu shall be included in the Forums in addition to representatives of Associations of specific Industrial Estates/ Growth Centres. The



Director, Industries & Commerce, Jammu/ Kashmir shall assign adequate functions/ duties to the Functional/ Project Managers for the facilitation of the unit holders and smooth functioning of the DICs.

- 5.13.4. The forum at General Manager, District Industries Centre level shall meet once fortnightly and at Directorate level shall meet once a month.
- 5.13.5. The grievances shall be addressed at GM DIC level within 14 days and at Directorate of Industries and Commerce level within 21 days.
- 5.13.6. The General Managers of the DICs shall also permanently display outside their office buildings showing the authority vested in them and the work distribution among different Managers of the DIC, timelines as per this order for various activities, check list (list of documents to be enclosed with the application) and the e- mail ID on which the applicant can apply and interact for various services. The same information may be made available on the DIC/ Directorate of Industries & Commerce websites.
- 5.13.7. Invest.JK will ensure a single landing page for Investors with information on J&K's ecosystem, policies, clearances, approvals etc.
- 5.13.8. The General Manager of DICs while processing the cases of subsidy shall not ask for the documents which have already been submitted by the beneficiary/ entrepreneur while obtaining date of production and process the case of subsidy as per timeline.

6. Change in Constitution

- 6.1. Change in constitution shall be allowed in following cases as specified in foregoing clauses:
- a) In case of projects before/ during implementation
 - b) In case of units which are registered permanently/ formally/ EM-II/ have commenced production or operation
 - c) In case of merger/ Amalgamation of two or more units which are registered permanently.
- 6.2. The details in this regard shall follow in the Procedural Guidelines.

ANNEXURE-I
Negative List:

The following industries will not be eligible for benefits under New Central Sector Scheme for Industrial Development of Jammu & Kashmir:

- i. All goods falling under Chapter 24 of the Central GST Tariff Act, 2017 which pertains to tobacco and manufactured tobacco substitutes.
- ii. Pan Masala as covered under Chapter 24 of the Central GST Tariff Act, 2017.
- iii. Plastic carry bags of less than 20 micron as specified by Ministry of Environment and Forests Notification No. S.O. 705(E) dated 02.09.1999 and S.O. 698(E) dated 17.6.2003 and any subsequent amendments.
- iv. Goods falling under Chapter 27 of the First Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986) produced by Petroleum or Gas refineries.
- v. Plantation, Refineries and Power generating Units above 10 MW.
- vi. Coke (including Calcined Petroleum Coke), Fly Ash.
- vii. Units not complying with environment standards or not having applicable Environmental Clearance from M/o Environment & Forests and Climate Change or State Environmental Impact Assessments Authority (SEIAA) or not having requisite consent to establish and operate from the concerned Central Pollution Control Board/State Pollution Control Board also will not be eligible for incentive under the scheme.
- viii. Low value addition activities in goods such as preservation during storage, cleaning, operations, packing, repacking or re-labelling, sorting, alteration of retail sale price etc. take place excluding high value packaging and processing.
- ix. Gold and gold ore.
- x. Molasses
- xi. Marble, Travertine & Granite.
- xii. Revolvers and pistols.
- xiii. Any other industry/activity placed in negative list through a separate notification as and when considered necessary by the Government. It will be effective from the date of such notification.

ANNEXURE-II

Positive List for Service Sector

The following services, details of which will be in guidelines, will be eligible for benefits under this policy.

Service Sector Positive List	
1	Tourism & Hospitality Services (including health & wellness tourism)
2	Services Promoting Film Tourism (including film cities, studios)
3	Ropeways, Entertainment Parks and Rides
4	Heritage Property Restoration Services
5	Healthcare Services
6	IT &ITeS Services
7	Maintenance and Repair Services
8	Freight Terminals, Logistics Park & Warehousing (including Cold Storage Services)
9	Testing, R&D, Analysis & Certification Services
10	Educational & Skill Development Services



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19022021-225276
CG-DL-E-19022021-225276

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 59]
No. 59]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 19, 2021/माघ 30, 1942
NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 19, 2021/MAGHA 30, 1942

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 2021

फा. सं. 1(1)/2020-एसएसएस.—भारत सरकार केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के औद्योगिक विकास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की नई स्कीम की घोषणा करती है।

1. स्कीम का शीर्षक: इस स्कीम को जम्मू और कश्मीर के औद्योगिक विकास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की नई स्कीम कहा जाएगा।
2. कवरेज: यह स्कीम केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर को कवर करेगी।
3. स्कीम की शुरुआत और अवधि: यह दिनांक 01.04.2021 से प्रभावी होगी तथा दिनांक 31.03.2037 तक लागू रहेगी।
4. पंजीकरण के लिए आवेदन की अवधि: पंजीकरण दिनांक 01.04.2021 से शुरू होगा तथा दिनांक 30.09.2024 तक जारी रहेगी, जो इस संबंध में जारी दिशानिर्देशों के अधीन है। तथापि, उपर्युक्त अवधि में, पहले ही प्रदान किए जा चुके पंजीकरणों के आधार पर यदि अनुमानित वित्तीय दायित्व अनुमोदित निधि के 115 प्रतिशत तक पहुंच जाता है तो पंजीकरण प्रक्रिया को अस्थायी अथवा स्थायी तौर पर रोका जा सकता है। हालांकि, अनुमोदित निधि की उपलब्धता के आधार पर पंजीकरण प्रक्रिया को दोबारा शुरू किया जा सकता है।
- 4.1. किसी आवेदक द्वारा पंजीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत कर देने से ही वह इस स्कीम के तहत पंजीकरण का पात्र नहीं होगा। आगे का ब्यौरा स्कीम के दिशानिर्देशों में उपलब्ध कराया जाएगा।

[Handwritten signature]

- 4.2. किसी भी इकाई को तब तक इस स्कीम के तहत पंजीकरण कराने या लाभों का दावा करने का अधिकार नहीं होगा जब तक कि वह दिशानिर्देशों में निर्धारित किए गए अनुसार पंजीकरण प्राधिकरण से विशेष रूप से अनुमोदित न हो।
- 4.3. पंजीकरण दिशानिर्देशों में यथानिर्धारित पंजीकरण प्राधिकरण द्वारा प्रदान किया जाएगा, जो अन्य के साथ-साथ, इकाई की प्रथम दृष्टया पात्रता, अनुमोदित निधि की उपलब्धता पर विचार करेगा।
- 4.4. इस स्कीम के तहत प्रोत्साहन प्राप्त करने की इच्छुक सभी इकाइयों को ऑनलाइन पोर्टल के जरिए पंजीकरण हेतु आवेदन करना होगा।
5. पंजीकरण प्रदान करना: पंजीकरण के लिए सभी आवेदनों का निपटान दिनांक 31.03.2025 तक किया जाएगा, जब तक कि इसे अन्यथा बढ़ाया न जाए।
6. परिभाषाएं:
- 6.1. 'अनुमोदित निधि' का तात्पर्य इस स्कीम के प्रत्येक घटक के तहत आवंटित वित्तीय परिव्यय से है।
- 6.2. 'निरपेक्ष बाजार मूल्य' आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत यथा परिभाषित।
- 6.3. 'वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करना': इसका तात्पर्य तैयार माल का वाणिज्यिक आधार पर विनिर्माण शुरू करने से है जिसके पूर्व परीक्षण उत्पादन और वाणिज्यिक मात्रा में तैयार उत्पाद के विनिर्माण के लिए पूर्ण संयंत्र एवं मशीनरी की स्थापना तथा विनिर्माण के लिए अपेक्षित कच्चे सामान, उपभोग्य वस्तुओं आदि की उपलब्धता आती है।
- 6.4. 'वाणिज्यिक प्रचालन की शुरुआत': इसका तात्पर्य वाणिज्यिक आधार पर सेवाओं के प्रचालन/सुपुर्दगी शुरू करने से है।
- 6.5. 'मौजूदा इकाई' का तात्पर्य एक इकाई से है जिसने दिनांक 1.4.2021 से पहले वाणिज्यिक उत्पादन/प्रचालन शुरू किया है तथा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में जीएसटी के तहत पंजीकृत है।
- 6.6. 'तैयार माल' का तात्पर्य औद्योगिक इकाई द्वारा वास्तव में उत्पादित और आपूर्ति सामान से है तथा जिसके लिए यह स्कीम के तहत पंजीकृत है।
- 6.7. 'विनिर्माण इकाई' का तात्पर्य ऐसी इकाई से है जो जो कच्चे माल या निविष्टि को किसी भी तरीके से प्रसंस्कृत करके उसे ऐसे नए उत्पाद में बदलती है जिसका विशेष नाम, स्वरूप तथा इस्तेमाल होता है तथा 'विनिर्माण इकाई' का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा।
- 6.8. 'नई इकाई'
- (क) विनिर्माण क्षेत्र के लिए इसका तात्पर्य इस स्कीम के तहत 1.4.2021 या उसके बाद पंजीकृत इकाई से है, लेकिन जिसका पंजीकरण दिनांक 31.03.2025 के बाद न हुआ हो। ऐसी इकाई को पंजीकरण प्रदान करने की तारीख से 3 वर्ष के भीतर वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करना होगा।
- (ख) सेवा क्षेत्र के लिए इसका तात्पर्य इस स्कीम के तहत 1.4.2021 या उसके बाद पंजीकृत इकाई से है, लेकिन जिसका पंजीकरण दिनांक 31.03.2025 के बाद न हुआ हो। ऐसी इकाई को पंजीकरण प्रदान करने की तारीख से 3 वर्ष के भीतर वाणिज्यिक प्रचालन उत्पादन शुरू करना होगा।
- (ग) नई इकाई को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा:
- (i) यह पहले से मौजूदा व्यवसाय के विघटन या पुनर्गठन से न बनी हो।
- (ii) यह पहले किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयुक्त संयंत्र एवं मशीनरी को नई इकाई को हस्तांतरित करके न बनी हो।
- (iii) यह किसी अन्य जगह से पुनः स्थापित न हुई हो और/अथवा यह मौजूदा इकाई न हो जो नए नाम और रूप में दोबारा खुली हो।

वशर्ते कि दिनांक 1.4.2021 से पहले इस्तेमाल न की गई धरोहर संपत्ति को इसके बाद वाणिज्यिक अथवा वाणिज्यिक आधार पर हॉस्पिटैलिटी अथवा पर्यटन सेवाओं के लिए इस्तेमाल किए जाने पर, ऐसी पात्रता शर्तों के अनुसार नई इकाई के रूप में विचार किया जाएगा जिनकी बाद में विस्तृत दिशानिर्देशों में व्याख्या की जाएगी।

- 6.9. विनिर्माण इकाइयों के मामले में, 'संयंत्र एवं मशीनरी' में स्थल पर स्थापित औद्योगिक संयंत्र एवं मशीनरी शामिल होगी जिसे खुले बाजार में निरपेक्ष बाजार मूल्य पर नया खरीदा गया हो। इसमें पुनः स्थापित/पुनर्चक्रित/नवीनीकृत संयंत्र एवं मशीनरी शामिल नहीं है।
- 6.10. सेवा क्षेत्र की इकाइयों के मामले में 'भवन और अन्य टिकाऊ भौतिक परिसम्पत्ति' में सेवा क्षेत्र की इकाई के लिए नया भवन और अन्य टिकाऊ भौतिक परिसम्पत्तियां शामिल होगी जहां निरपेक्ष बाजार मूल्य का पालन करके खरीद की गई हो।
- 6.11. 'कच्चे माल' का तात्पर्य किसी इकाई द्वारा उत्पादन या तैयार सामान के विनिर्माण में प्रयुक्त सामग्री या पदार्थ से है।
- 6.12. 'सेवा' का तात्पर्य वस्तु, पैसे या प्रतिभूति के अलावा अन्य चीजों से है लेकिन इसमें पैसे के इस्तेमाल से संबंधित क्रियाकलाप अथवा नकद अथवा किसी अन्य तरीके से परिवर्तन, एक प्रकार की मुद्रा या मूल्यवर्ग का दूसरे प्रकार की मुद्रा या मूल्यवर्ग में परिवर्तन शामिल है जिसके लिए अलग प्रभार लिया जाता है।
- 6.13. 'सेवा इकाई' का तात्पर्य 'सेवा' प्रदान करने वाली इकाई से है।
- 6.14. 'पर्याप्त विस्तार' का तात्पर्य मौजूदा इकाई में संयंत्र एवं मशीनरी में पहले से ही किए गए कुल निवेश के न्यूनतम पच्चीस प्रतिशत के अतिरिक्त निवेश (विनिर्माण क्षेत्र के लिए), अथवा भवन अथवा अन्य टिकाऊ भौतिक परिसम्पत्तियों के निर्माण (सेवा क्षेत्र के लिए) से है।
अतिरिक्त निवेश के परिणामस्वरूप उत्पादन क्षमता/ सेवा में बड़ोतरी या विविधता होनी चाहिए तथा यह मौजूदा संयंत्र एवं मशीनरी का प्रतिस्थापन मात्र नहीं होना चाहिए।
- 6.15. 'इकाई' का तात्पर्य सरकार द्वारा विभागीय रूप से संचालित उद्यमों को छोड़कर, किसी औद्योगिक (विनिर्माण) कंपनी अथवा सेवा क्षेत्र के पात्र उद्यम से है, जो वस्तु और सेवा कर के तहत पंजीकृत व्यावसायिक उद्यम है।
- 6.16. 'कार्यशील पूंजी' वर्तमान परिसम्पत्तियों और वर्तमान दायित्वों का अंतर है। यह इकाई के सुचारु और निर्बाध संचालन के लिए अपेक्षित पूंजी है तथा इसका इस्तेमाल दैनिक जरूरतों के वित्तपोषण के लिए किया जाता है जैसे कच्चा माल खरीदना।
- 6.17. इस स्कीम के प्रयोजन के लिए जोन क और जोन ख का तात्पर्य जम्मू और कश्मीर की सरकार द्वारा यथा परिभाषित और दिशानिर्देशों में यथा विनिर्दिष्ट क्षेत्र से होगा।

7. प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए पात्रता:

- 7.1. विनिर्माण के तहत सभी पात्र इकाइयों तथा पात्र सेवा क्षेत्र को इस स्कीम के तहत प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा जैसा कि संबंधित प्रोत्साहन के तहत परिभाषित किया गया है।
- 7.2. यह स्कीम उन इकाइयों पर लागू नहीं होगी जो अनुबंध-I में दी गई निषेध सूची में सूचीबद्ध उत्पादों का विनिर्माण करते हैं।
- 7.3. भवन और अन्य टिकाऊ भौतिक परिसम्पत्तियों में न्यूनतम 1 करोड़ रुपये का निवेश करने वाली सेवा क्षेत्र की इकाइयां इस स्कीम के तहत प्रोत्साहन के लिए पात्र होंगी। यह स्कीम अनुबंध-II में दी गई सकारात्मक सूची में सूचीबद्ध सेवाओं के लिए लागू होगी जिसे संचालन समिति द्वारा और संशोधित किया जा सकता है।
- 7.4. सभी पात्र इकाइयों को पंजीकरण प्रदान करने की तारीख से 3 वर्ष के भीतर वाणिज्यिक उत्पादन/प्रचालन शुरू करना होगा।

- 7.5. किसी इकाई द्वारा संयंत्र एवं मशीनरी (विनिर्माण क्षेत्र के लिए) तथा भवन और अन्य टिकाऊ भौतिक परिसम्पत्तियों के निर्माण (सेवा क्षेत्र के लिए) में दिनांक 1.4.2019 को या उसके बाद किए गए किसी भी निवेश को, इस स्कीम के पूंजी निवेश प्रोत्साहन, पूंजीगत व्याज सहायता और जीएसटी संबद्ध प्रोत्साहन के तहत पात्रतानुसार निवेश के पात्र मूल्य का निर्णय करते समय ध्यान में रखा जाएगा। हालांकि, वाणिज्यिक उत्पादन/प्रचालन शुरू करने की तारीख 1.4.2021 या इसके बाद होनी चाहिए। कोई भी प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए पात्रता इस स्कीम के तहत पंजीकरण प्रदान किए जाने के अध्यक्षीन है।
- 7.6. (क) संयंत्र एवं मशीनरी की लागत (विनिर्माण क्षेत्र के लिए) जो तैयार सामान के विनिर्माण के लिए अनिवार्य है, में भूमि की लागत, उपभोग्य वस्तुएं, निपटान योग्य वस्तुएं अथवा राजस्व वाली कोई अन्य मद शामिल नहीं है।
(ख) सेवा क्षेत्र की इकाई के लिए भवन निर्माण की लागत तथा अन्य भौतिक परिसम्पत्तियों की अधिप्राप्ति की लागत शामिल है, जो सेवा क्षेत्र की उस इकाई के संचालन के लिए मूलभूत है, लेकिन इसमें भूमि की लागत, उपभोग्य वस्तुएं, निपटान योग्य वस्तुएं अथवा राजस्व वाली कोई अन्य मद शामिल नहीं है।
- 7.7. भारत सरकार की किसी अन्य स्कीमों के तहत लाभ प्राप्त करने वाली इकाइयां इस स्कीम के तहत समान प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होंगी।
- 7.8. खंड 7.7 के प्रावधानों के अध्यक्षीन, ऐसी इकाइयां पात्रता के अनुसार स्कीम के तहत अन्य प्रोत्साहन प्राप्त कर सकती हैं। इस बारे में दिशानिर्देशों में विस्तार से उल्लेख किया जाएगा।
- 7.9. इस स्कीम के लाभार्थी को इस स्कीम के निबंधन और शर्तों द्वारा बाध्य होने के बारे में घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 7.10. इस स्कीम के तहत पात्रता, संयंत्र एवं मशीनरी (विनिर्माण क्षेत्र में) में निवेश (मुख्य और गौण) तथा भवन और अन्य टिकाऊ भौतिक परिसम्पत्तियों (सेवा क्षेत्र में) की निर्माण लागत के सत्यापन के अध्यक्षीन होगी। हालांकि, प्रोत्साहन विनिर्माण और सेवा क्षेत्र, दोनों के मुख्य वर्गों के लिए पात्र होंगे। इसका विस्तृत ब्यौरा दिशानिर्देशों में निर्धारित किया जाएगा।

7.11. प्रोत्साहन प्राप्त करने की अवधि:

सभी पात्र इकाइयां संबंधित प्रोत्साहनों में यथा विनिर्दिष्ट अवधि तक इस स्कीम के तहत विनिर्दिष्ट प्रोत्साहन प्राप्त कर सकती हैं।

8. नोडल एजेंसी

जम्मू और कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड (जेकेडीएफसी) अथवा इस संबंध में भारत सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई भी अन्य एजेंसी इस स्कीम के विभिन्न घटकों के तहत प्रोत्साहनों के संचालन के लिए नोडल एजेंसी होगी। नोडल एजेंसी पात्र इकाइयों के निर्धारित बैंक खातों में ई-अंतरण के जरिए ही प्रोत्साहन जारी करेगी।

9. शासन और कार्यान्वयन तंत्र

- 9.1 यह स्कीम भारत सरकार यथा उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) के पर्यवेक्षण के अंतर्गत कार्यान्वित की जाएगी। हालांकि, पंजीकरण प्रक्रिया के साथ-साथ विभिन्न प्रोत्साहन घटकों के तहत दावों पर कार्यवाही का अधिकार केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर को प्रत्यायोजित किया गया है। स्कीम के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देशों में विस्तृत जानकारी दी जाएगी।

- 9.2 इस स्कीम के संचालन और कार्यान्वयन के लिए गठित समितियां तथा उनकी शक्तियां और कार्य निम्नानुसार हैं:

9.2.1 शीर्ष समिति

(क) गठन

- (i) केंद्रीय गृह मंत्री- अध्यक्ष
- (ii) केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री
- (iii) केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के उप-राज्यपाल

(ख) शक्तियां एवं कार्य

- (i) स्कीम के कुल वित्तीय परिव्यय के भीतर किसी भी संशोधन का निर्णय करेगी जो अन्य समितियों को विशेष रूप से प्रत्यायोजित शक्तियां और कार्यों के तहत न आते हों।
- (ii) किसी भी उत्पाद को निषेध सूची से हटाने का अनुमोदन देना।

9.2.2 संचालन समिति**(क) गठन**

- (i) सचिव, डीपीआईआईटी-अध्यक्ष
- (ii) सचिव/अपर सचिव, गृह मंत्रालय
- (iii) सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- (iv) सचिव, एमएसएमई मंत्रालय
- (v) प्रतिनिधि, नीति आयोग
- (vi) अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार (एएसएंडएफए), डीपीआईआईटी
- (vii) मुख्य सचिव, जम्मू और कश्मीर सरकार
- (viii) जम्मू और कश्मीर स्कीम के प्रभारी संयुक्त सचिव, डीपीआईआईटी (सदस्य सचिव)

(ख) शक्तियां और कार्य

- (i) सुचारु कार्यान्वयन की निगरानी तथा लागू करने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी करना जिसमें केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय समिति के समग्र पर्यवेक्षण के अंतर्गत पंजीकरण तथा दावों को स्वीकृत प्रदान करने के लिए प्रत्यायोजन के विभिन्न स्तर शामिल हैं।
- (ii) तारीखों को आगे बढ़ाने सहित पंजीकरण, उत्पादन/प्रचालन की शुरुआत से संबंधित मामलों का निर्णय करना।
- (iii) आवश्यकतानुसार कार्यान्वयन, निगरानी और आईटी सहायता के प्रस्तावों तथा डीपीआईआईटी के स्तर पर परियोजना प्रबंधन इकाई तथा केंद्र शासित प्रदेश के स्तर पर परियोजना कार्यान्वयन इकाई की स्थापना सहित प्रशासनिक लागत घटक के तहत आकस्मिक व्यय संबंधी निर्णय करना।
- (iv) केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की सेवाओं का इस्तेमाल करना और विशेष रूप से जाली व नकली दावों को रोकने के लिए जानकारी प्राप्त करने हेतु उपयुक्त अधिकारियों जैसे जीएसटी, आयकर के क्षेत्राधिकार मुख्य आयुक्त, केंद्र शासित प्रदेश जीएसटी के आयुक्त को आवधिक रूप से विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित करना।
- (v) स्कीम के दुरुपयोग को रोकने के लिए सत्यापन हेतु स्वतंत्र तृतीय पक्षकार को नियुक्त करके अथवा योग्य कर्मचारियों का पैनल बनाकर क्रमरहित/औचक निरीक्षण करना।
- (vi) केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन से परामर्श करते हुए सेवा क्षेत्र के तहत पात्रता संबंधी विस्तृत दिशानिर्देश जारी करना।
- (vii) ब्लॉक्स के जोन क और जोन ख में बर्गीकरण को संशोधित करना। हालांकि, बर्गीकरण में यह संशोधन केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर द्वारा किए गए ब्लॉकों के बर्गीकरण के अनुरूप होगा।
- (viii) वस्तुओं के लिए निषेध सूची की समीक्षा और इसमें किसी वस्तु को शामिल करना तथा सेवाओं के लिए सकारात्मक सूची में कोई भी बदलाव।

9.2.3 केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय समिति**(क) गठन**

- (i) मुख्य सचिव, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर- अध्यक्ष
- (ii) सचिव, वित्त, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर
- (iii) सचिव, उद्योग और वाणिज्य, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर (सदस्य सचिव)
- (iv) संयुक्त सचिव (सं.स.) डीपीआईआईटी (अथवा उनके प्रतिनिधि)
- (v) डीपीआईआईटी के आंतरिक वित्त स्कंध के प्रतिनिधि- सदस्य
- (vi) विचाराधीन परियोजना से संबंधित संगत क्षेत्र के किसी अन्य सदस्य को मुख्य सचिव अथवा सचिव (उद्योग और वाणिज्य), केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर प्रशासन द्वारा विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जा सकता है।

(ख) शक्तियां व कार्य

- (i) स्कीम की निगरानी और समय कार्यान्वयन तथा पंजीकरण प्रदान करने और स्कीम के तहत दावों पर कार्यवाही और अनुमोदन में पारदर्शिता और कुशलता सुनिश्चित करने के लिए उचित जांच व संतुलन स्थापित करना।
- (ii) स्कीम का दुरुपयोग रोकने के लिए समिति उद्योग और वाणिज्य विभाग, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के साथ मिलकर उचित जांच व संतुलन का होना सुनिश्चित करेगी।

9.3 इकाइयों को पंजीकरण प्रदान करने, दावों पर कार्यवाही करने तथा उन्हें स्वीकृति प्रदान करने की शक्तियों को और प्रत्यायोजित करने का ब्यौरा स्कीम के विस्तृत दिशानिर्देशों में निर्धारित किया जाएगा।

10. स्कीम के तहत प्रोत्साहन

पात्रता के अध्याधीन, स्कीम के तहत निम्नलिखित प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं:

- (i) पूंजी निवेश प्रोत्साहन (सीआईआई)
- (ii) पूंजीगत ब्याज सहायता (सीआईएस)
- (iii) वस्तु और सेवा कर संबद्ध प्रोत्साहन (जीएसटीएलआई)
- (iv) कार्यशील पूंजी ब्याज सहायता (डब्ल्यूसीआईएस)

10.1. पूंजी निवेश प्रोत्साहन (सीआईआई):**(क) पात्रता:**

- (i) निम्नलिखित इकाइयां इस प्रोत्साहन के लिए पात्र होंगी

I. संयंत्र एवं मशीनरी (विनिर्माण क्षेत्र के लिए) अथवा भवन और अन्य सभी टिकाऊ भौतिक परिसम्पत्तियों (सेवा क्षेत्र के लिए) में अधिकतम 50.00 (पचास) करोड़ रुपए का निवेश करने वाली जोन क और जोन ख, दोनों की नई इकाइयां यह प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए पात्र होंगी।

II. संयंत्र एवं मशीनरी (विनिर्माण क्षेत्र के लिए) अथवा भवन और अन्य सभी टिकाऊ भौतिक परिसम्पत्तियों (सेवा क्षेत्र के लिए) में अधिकतम 50.00 (पचास) करोड़ रुपए का निवेश करने वाली जोन क और जोन ख, दोनों की पर्याप्त विस्तार करने वाली मौजूदा इकाइयां इस प्रोत्साहन के तहत लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र होंगी।

- (ii) खंड 6.8 (ग) में परंतुक के अध्याधीन, कोई भी इकाई केवल तभी इस प्रोत्साहन के लिए पात्र होगी जब वह नई संयंत्र एवं मशीनरी (विनिर्माण क्षेत्र के लिए) की संस्थापना अथवा नए भवन और अन्य टिकाऊ भौतिक परिसम्पत्तियों (सेवा क्षेत्र के लिए) का निर्माण करती है, जहां खरीद निरपेक्ष बाजार मूल्य पर की गई हो।

- (iii) सेवा क्षेत्र की इकाई इस प्रोत्साहन के लिए तब पात्र होगी जब वह नए भवन और अन्य टिकाऊ भौतिक परिसम्पत्तियों में कम से कम 1.00 करोड़ रुपए का निवेश करती है।
- (ख) केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में जोन क श्रेणी के ब्लॉक्स में स्थित सभी पात्र इकाइयों को संयंत्र एवं मशीनरी (विनिर्माण क्षेत्र के लिए) में किए गए निवेश अथवा भवन निर्माण और अन्य टिकाऊ भौतिक परिसम्पत्तियों की संस्थापना (सेवा क्षेत्र के लिए) के लिए 30 प्रतिशत की दर से पूंजी निवेश सहायता प्रदान की जाएगी जिसकी अधिकतम सीमा 5.00 करोड़ रुपए है।
- (ग) केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में जोन ख श्रेणी के ब्लॉक्स में स्थित सभी पात्र इकाइयों को संयंत्र एवं मशीनरी (विनिर्माण क्षेत्र के लिए) में किए गए निवेश अथवा भवन निर्माण और अन्य टिकाऊ भौतिक परिसम्पत्तियों की संस्थापना (सेवा क्षेत्र के लिए) के लिए 50 प्रतिशत की दर से पूंजी निवेश सहायता प्रदान की जाएगी जिसकी अधिकतम सीमा 7.50 करोड़ रुपए है।
- (घ) एक मौजूदा इकाई पर्याप्त विस्तार करने के लिए स्कीम की वैधता अवधि के दौरान केवल एक बार यह लाभ प्राप्त कर सकती है।
- (ङ) इस स्कीम के तहत पंजीकृत नई इकाई पर्याप्त विस्तार के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने की पात्र नहीं होगी।
- (च) इस प्रोत्साहन को प्राप्त करने के लिए इकाई का भौतिक सत्यापन अनिवार्य है। हालांकि, विशेष परिस्थितियों में, औचित्य सहित केंद्र शासित प्रदेश की सिफारिश पर, संचालन समिति भौतिक सत्यापन की बजाय इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों अथवा उचित माने गए अन्य तरीकों पर विचार कर सकती है।
- (छ) पंजीकरण और यह प्रोत्साहन प्राप्त करने की विस्तृत प्रक्रिया दिशानिर्देशों में निर्धारित की जाएगी।

10.2. पूंजीगत ब्याज सहायता (सीआईएस)

(क) पात्रता:

- (i) नई इकाइयां पात्र संयंत्र एवं मशीनरी (विनिर्माण क्षेत्र के लिए) और भवन और अन्य टिकाऊ भौतिक परिसम्पत्तियों (सेवा क्षेत्र के लिए) के निर्माण में किए गए निवेश पर लिए गए ऋण के संबंध में इस प्रोत्साहन के लिए पात्र होंगी।
- (ii) पर्याप्त विस्तार करने वाली मौजूदा इकाइयां भी खंड 10.2(क)(i) के अनुसार इस प्रोत्साहन के लिए पात्र होंगी।
- (iii) पात्र संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश के लिए 500 करोड़ रुपए तक की मूल राशि के ऋण पर ब्याज पूंजीगत ब्याज सहायता के लिए पात्र होगा। यदि ऋण की कुल मूल राशि 500 करोड़ रुपए से अधिक है (ऋण समग्र रूप से परिभाषित न कि प्रत्येक किस्त में आहरित राशि के अनुसार) तो 500 करोड़ रुपए से अधिक की ऋण राशि पर ब्याज पूंजीगत ब्याज सहायता हेतु पात्र नहीं होगा।
- (iv) पूंजीगत ब्याज सहायता संवितरित राशि के लिए पात्र होगी और यह आवधिक ऋण के लिए स्वीकृत मूल राशि के लिए पात्र नहीं होगी।
- (v) एक इकाई इस प्रोत्साहन के लिए तभी पात्र होगी जब वह नई संयंत्र एवं मशीनरी (विनिर्माण क्षेत्र के लिए) की संस्थापना करती है अथवा नए भवन या अन्य टिकाऊ भौतिक परिसम्पत्तियों का निर्माण (सेवा क्षेत्र के लिए) करती है, जहां खरीद निरपेक्ष बाजार मूल्य के आधार पर की गई हो।
- (vi) नए भवन और अन्य टिकाऊ भौतिक परिसम्पत्तियों में न्यूनतम 1 करोड़ रुपए का निवेश करने वाली सेवा क्षेत्र की इकाई इस प्रोत्साहन के लिए पात्र होगी।

- (ख) सभी पात्र इकाइयां इस स्कीम के तहत पंजीकरण हेतु आवेदन की तारीख के बाद किसी भी तारीख से अधिकतम लगातार 7 वर्षों के लिए 6 प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर से पूंजीगत ब्याज सहायता प्राप्त कर सकती हैं। हालांकि, इस प्रोत्साहन के तहत पात्र राशि का संवितरण वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ होने के बाद ही शुरू किया जाएगा।

- (ग) भविष्य में यदि ब्याज की वार्षिक दर 8 प्रतिशत से कम हो जाती है, तब भी पात्र इकाई 2 प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर से न्यूनतम ब्याज राशि का भुगतान करने के लिए बाध्य होगी। (उदाहरण: भविष्य में, एक बैंक द्वारा किसी पात्र इकाई के लिए वार्षिक ऋण दर घटकर 7 प्रतिशत रह जाती है तो ब्याज सहायता की राशि 5 प्रतिशत तक सीमित रहेगी, तथा वह इकाई 2 प्रतिशत ब्याज वहन करेगी।)
- (घ) यह प्रोत्साहन अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अथवा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पंजीकृत वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋण पर लागू होगा।
- (ङ) यह प्रोत्साहन प्राप्त करने की विस्तृत प्रक्रिया दिशानिर्देशों में निर्धारित की जाएगी।

10.3. वस्तु और सेवा कर संबद्ध प्रोत्साहन (जीएसटीएलआई)

- (क) पात्रता : संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश (विनिर्माण क्षेत्र के लिए) और भवन तथा अन्य टिकाऊ भौतिक परिसम्पत्तियों (सेवा क्षेत्र के लिए) के निर्माण के मूल्य को ध्यान में रखे बिना, इस स्कीम के तहत पंजीकृत तथा जीएसटी पंजीकरण वाली सभी नई इकाइयों इस प्रोत्साहन के तहत लाभ के लिए पात्र होंगी।
- (ख) इस घटक के तहत प्रोत्साहन की अधिकतम सीमा संयंत्र एवं मशीनरी (विनिर्माण क्षेत्र के लिए) में किए गए निवेश अथवा भवन और अन्य टिकाऊ भौतिक परिसम्पत्तियों (सेवा क्षेत्र के लिए) के निर्माण के पात्र मूल्य का 300 प्रतिशत होगी। विनिर्माण के लिए संयंत्र एवं मशीनरी अथवा सेवा क्षेत्र में भवन और टिकाऊ भौतिक परिसम्पत्तियों का मूल्य पूंजी निवेश प्रोत्साहन अथवा पूंजीगत ब्याज सहायता, जो भी लागू हो, के तहत निर्धारित पात्र मूल्य के अनुसार होगा।
- (ग) सभी पात्र इकाइयों को वाणिज्यिक उत्पादन/प्रचालन शुरू करने की तारीख से 10 वर्षों की अधिकतम अवधि अथवा स्कीम की वैधता तक, जो भी पहले हो, के लिए जीएसटी के सकल भुगतान यथा नकद अथवा इनपुट कर ऋण के जरिए भुगतान किए गए जीएसटी के 100 प्रतिशत के बराबर वस्तु और सेवा कर संबद्ध प्रोत्साहन (जीएसटीएलआई) प्रदान किया जाएगा। हालांकि, निर्धारित वस्तुओं और सेवाओं पर दिए गए जीएसटी को इस घटक के तहत पात्र प्रोत्साहन राशि के रूप में नहीं गिना जाएगा।
- (घ) एक वित्तीय वर्ष में दी गई प्रोत्साहन राशि इस घटक के तहत पात्र प्रोत्साहन की कुल राशि के दसवें हिस्से से अधिक नहीं होगी जो दावा अवधि के लिए दायर किए गए जीएसटी रिटर्न के अनुसार जीएसटी के पूरे भुगतान के अध्यधीन है।
- (ङ) प्रोत्साहन की मात्रा समान होगी चाहे फिर वह इकाई केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के जोन क में स्थित हो अथवा जोन ख में स्थित हो।
- (च) यदि किसी इकाई द्वारा एक वित्तीय वर्ष में भुगतान किया गया कुल जीएसटी पात्र प्रोत्साहन राशि के दसवें हिस्से से अधिक है, तो शेष राशि को अगले वित्तीय वर्ष (वर्षों) में ले जाया जा सकता है। इसके अलावा, इकाई पहले तीन वर्षों में पूरी पात्र प्रोत्साहन राशि का दावा करने में सक्षम नहीं है तो इसे अगले वर्षों में ले जाया जा सकता है। हालांकि, इसे 10 वर्षों की पात्रता अवधि अथवा स्कीम की वैधता अवधि, जो भी पहले हो, से आगे नहीं ले जाया जा सकता।
- (छ) इस प्रोत्साहन के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए, इकाई को जीएसटी के लिए नई पंजीकरण संख्या प्राप्त करना अपेक्षित है। यदि आवेदक की एक अन्य इकाई केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में पंजीकृत है तो मौजूदा जीएसटी संख्या को उस नई इकाई के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा जो इस स्कीम के तहत पंजीकृत है। (उदाहरण: यदि मौजूदा इकाई 'क', 'ख' नाम से नई इकाई शुरू करती है तो इकाई 'क' की जीएसटी संख्या जीएसटीएलआई प्राप्त करने के लिए इकाई 'ख' पर लागू नहीं होगी। जीएसटीएलआई प्राप्त करने के लिए इकाई 'ख' को नई जीएसटी संख्या लेना आवश्यक होगा।)
- (ज) यह प्रोत्साहन प्राप्त करने की विस्तृत प्रक्रिया दिशानिर्देशों में निर्धारित की जाएगी।

10.4. कार्यशील पूंजी ब्याज सहायता (डब्ल्यूसीआईएस)

- (क) पात्रता: इस स्कीम की अधिसूचना की तारीख से पहले केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में जीएसटी के तहत पंजीकृत की सभी मौजूदा इकाइयां इस प्रोत्साहन हेतु पात्र होंगी, जो पंजीकरण तथा दिशानिर्देशों में यथा निर्धारित अन्य शर्तों के अध्वधीन है।
- (ख) केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के जोन क और जोन ख, दोनों में स्थित इकाइयां इस प्रोत्साहन के लिए पात्र हैं।
- (ग) सभी मौजूदा पात्र इकाइयां इस स्कीम के तहत पंजीकरण प्रदान करने की तारीख से अधिकतम लगातार 5 वर्षों के लिए कार्यशील पूंजी ऋण पर 5 प्रतिशत की दर से ब्याज सहायता प्राप्त कर सकती हैं। इस स्कीम घटक के तहत लाभ प्राप्त करने वाली मौजूदा इकाइयां पांच वर्ष की अवधि के लिए पात्र होंगी, चाहे वे पर्याप्त विस्तार ही क्यों न कर रही हों।
- (घ) यदि बैंक द्वारा वार्षिक ब्याज दर 6 प्रतिशत से नीचे चली जाती है, तब भी पात्र इकाइयों को न्यूनतम 1 प्रतिशत की दर से वार्षिक ब्याज का भुगतान करना होगा (उदाहरण: यदि किसी इकाई के लिए बैंक ब्याज दर 5 प्रतिशत हो जाती है तो ब्याज सहायता 4 प्रतिशत तक सीमित होगी तथा 1 प्रतिशत ब्याज इकाई द्वारा वहन किया जाएगा)।
- (ङ) विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के लिए इस घटक के तहत अधिकतम लाभ 5 वर्षों में 1 करोड़ रुपये है। कार्यशील पूंजी ब्याज सहायता की पात्र राशि की गणना की पद्धति इसके तहत जारी विस्तृत दिशानिर्देशों में निर्धारित की जाएगी।
- (च) यह प्रोत्साहन प्राप्त करने की विस्तृत प्रक्रिया दिशानिर्देशों में निर्धारित की जाएगी।

11. पंजीकरण हेतु आवेदन, प्रोत्साहन के दावे, अनुमोदन और दावों के संवितरण की प्रक्रिया:

यह अलग से जारी किए जाने वाले दिशानिर्देशों में निर्धारित किए जाएंगे।

12. दावों से संबंधित कार्यवाही/ जांच:

- 12.1. स्कीम के तहत दायर किए गए दावों की डीपीआईआईटी द्वारा नियुक्त मान्यताप्राप्त स्वतंत्र लेखा परीक्षा एजेंसी द्वारा पूर्व-जांच की जाएगी।
- 12.2. जेकेडीएफसी प्रोत्साहनों के संवितरण से पहले 10 प्रतिशत दावों की पूर्व-जांच करेगा। डीपीआईआईटी के मुख्य लेखा नियंत्रक भी उच्च मूल्य वाले 20 प्रतिशत दावों (अर्थात् 5.00 करोड़ रुपये या उससे अधिक), प्रत्येक वित्तीय वर्ष में जारी 1 प्रतिशत कार्यशील पूंजी ब्याज सहायता दावों तथा 5 प्रतिशत अन्य दावों की पश्च लेखापरीक्षा करेगा।
- 12.3. भारत सरकार के सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों के लिए अपने संबंधित अधिनियमों/नियमों/अधिसूचनाओं आदि में संशोधन करना तथा इन निर्णयों को लागू करने के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करना अपेक्षित है।

13. केंद्र सरकार/केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की सरकार/वित्तीय संस्थाओं के अधिकार:

- 13.1. यदि इस स्कीम के तहत प्रोत्साहन प्राप्त करने वाली कोई इकाई वाणिज्यिक उत्पादन/प्रचालन शुरू करने की तारीख से 10 वर्ष की अवधि के भीतर उत्पादन/प्रचालन बंद कर देती है अथवा अपने स्थान में पूरी तरह अथवा इकाई के किसी हिस्से के स्थान में परिवर्तन करती है अथवा अपने कुल स्थिर पूंजी निवेश के बड़े हिस्से का निपटान कर देती है, तो वह इकाई उत्पादन/प्रचालन बंद करने अथवा स्थान में परिवर्तन करने की तारीख से किसी भी प्रोत्साहन का दावा करने के लिए पात्र नहीं होगी।

इसके अलावा, यदि कोई इकाई वाणिज्यिक उत्पादन/प्रचालन शुरू करने की तारीख से 5 वर्ष के भीतर उत्पादन/प्रचालन बंद कर देती है अथवा अपने स्थान में पूरी तरह अथवा इकाई के किसी हिस्से के स्थान में परिवर्तन करती है अथवा अपने कुल स्थिर पूंजी निवेश के बड़े हिस्से का निपटान कर देती है, तो ऐसी सभी इकाइयां प्राप्त किए गए सभी अनुदान अथवा प्रोत्साहन लौटाने के लिए बाध्य होंगी।

- 13.2. यदि यह प्रमाणित हो जाता है कि किसी इकाई ने जरूरी तथ्य की गलत व्याख्या करके/छुपाकर, गलत जानकारी देकर प्रोत्साहन प्राप्त किया है तो इकाई को 15 प्रतिशत प्रति वर्ष के ब्याज के साथ समस्त अनुदान अथवा प्रोत्साहन राशि लौटानी होगी तथा वह आपराधिक कार्यवाही के लिए भी जिम्मेदारी होगी।
- 13.3. निविष्टि आपूर्ति को छुपाने अथवा दावों के लिए तृतीय पक्षकार अथवा जम्मू और कश्मीर के बाहर के उत्पादन का सहारा लेने अथवा इसी प्रकार के अन्य गलत तरीकों को अपनाने वाली इकाई आगे के दावों को जप्त करने तथा पहले दिए गए सभी प्रोत्साहनों की 15 प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज दर से वसूली के लिए जिम्मेदार होगी।
- 13.4. प्रोत्साहन (प्रोत्साहनों) को डिजिटल तरीके से जारी किया जाएगा तथा नोडल एजेंसी लाभार्थी इकाई के संबंध में डीबीटी मिशन द्वारा अपेक्षित सारी जानकारी एकत्र करेगी। नोडल एजेंसी इस संबंध में लाभार्थी इकाई के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता से हलफनामा सह अतिपूर्ति बॉन्ड लेगी।
- 13.5. नोडल एजेंसी अंतिम किस्त/पूरी राशि प्राप्त होने की तारीख से 3 महीनों के भीतर डीपीआईआईटी को संवितरण के संबंध में सामान्य वित्तीय नियमावली, 2017 के प्रपत्र 12(ग) में प्रोत्साहन का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगी।

14. इकाई द्वारा प्रोत्साहन के भुगतान में देरी पर ब्याज का दावा नहीं किया जा सकता।

राजेन्द्र रत्नू, संयुक्त सचिव

अनुबंध-1

निषेध सूची:

निम्नलिखित उद्योग जम्मू और कश्मीर के औद्योगिक विकास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की नई स्कीम के तहत लाभ हेतु पात्र नहीं होंगे:

- (i) केंद्रीय जीएसटी प्रशुल्क अधिनियम, 2017 के अध्याय 24 के तहत आने वाली वस्तुएं जो तंबाकू और तम्बाकू निर्मित वस्तुओं से संबंधित हैं।
- (ii) केंद्रीय जीएसटी प्रशुल्क अधिनियम, 2017 के अध्याय 24 के तहत शामिल पान मसाला।
- (iii) पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.705 (अ) दिनांक 02.09.1999 और का.आ. 698 (अ) दिनांक 17.6.2003 और बाद के संशोधनों के द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार 20 माइक्रॉन से कम की प्लास्टिक की थैलियां।
- (iv) केंद्रीय उत्पाद प्रशुल्क अधिनियम, 1985(1986 का 5) की प्रथम सूची के अध्याय-27 के अंतर्गत आने वाली पेट्रोलियम अथवा गैस रिफाइनरी द्वारा उत्पादित वस्तुएं
- (v) प्लाटेशन, रिफाइनरी तथा 10 मेगावॉट से ज्यादा की बिद्युत उत्पादक इकाइयां
- (vi) कोक (कैल्साइन्ड पेट्रोलियम कोक सहित), फ्लाई ऐश
- (vii) पर्यावरण मानकों का अनुपालन नहीं करने वाली अथवा पर्यावरण एवं वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अथवा राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण (एसईआईएए) से पर्यावरण संबंधी मंजूरी प्राप्त नहीं करने वाली अथवा संबंधित केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/ राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापना तथा प्रचालन की अपेक्षित सहमति नहीं लेने वाली इकाइयां इस योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन हेतु पात्र नहीं होगी।
- (viii) वस्तुओं में कम मूल्य वर्धन क्रियाकलाप जैसे भंडारण के दौरान संरक्षण, सफाई, प्रचालन, पैकिंग, रि-पैकिंग अथवा रि-लेबलिंग, छंटनी, खुदरा बिक्री मूल्य का परिवर्तन, उच्च मूल्य पैकेजिंग तथा प्रसंस्करण को छोड़कर।
- (ix) गोल्ड तथा गोल्ड डोर।
- (x) राब।
- (xi) संगमरमर, ट्रेवर्टिन और ग्रेनाइट।
- (xii) रिवॉल्वर और पिस्टल।
- (xiii) सरकार द्वारा जब भी आवश्यकता समझा जाए, तब एक अलग अधिसूचना के माध्यम से निषेध-सूची में शामिल किया गया कोई उद्योग/क्रियाकलाप। यह ऐसी अधिसूचना की तारीख से प्रभावी होगा।

अनुबंध-II

निम्नलिखित सेवाएं जम्मू और कश्मीर के औद्योगिक विकास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की नई स्कीम के तहत लाभ हेतु पात्र होंगी, जिनका ब्यौरा दिशानिर्देशों में दिया जाएगा:

सेवा क्षेत्र सकारात्मक सूची	
1	पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी सेवाएं (स्वास्थ्य और स्वास्थ्य देखभाल पर्यटन सहित)
2	फिल्म पर्यटन को बढ़ावा देने वाली सेवाएं (फिल्म सिटी, स्टूडियो सहित)
3	रोप-वे, मनोरंजन पार्क और राइड्स
4	हेरिटेज प्रॉपर्टी रिस्टोरेशन सेवाएं
5	स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं
6	आईटी और आईटीईएस सेवाएं
7	रखरखाव और रिपेयर सेवाएं
8	फ्रेट टर्मिनल, लॉजिस्टिक्स पार्क और भंडारण (कोल्ड स्टोरेज सेवाओं सहित)
9	परीक्षण, आरएंडडी, विश्लेषण और प्रमाणन सेवाएं
10	शैक्षणिक और कौशल विकास सेवाएं

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 19th February, 2021

F. No. 1(1)/2020-SSS.—The Government of India is pleased to announce New Central Sector Scheme for Industrial Development of Union Territory of Jammu & Kashmir.

- 1. Scheme Title:** This Scheme will be called New Central Sector Scheme for Industrial Development of Jammu & Kashmir.
- 2. Coverage:** The Scheme will cover the Union Territory of Jammu & Kashmir.
- 3. Commencement and Duration of the Scheme:** It will be effective from 01.04.2021 and will remain in force up to and inclusive of 31.03.2037.
- 4. Application period for registration:** Registration shall commence from 01.04.2021 and will continue till 30.09.2024, subject to the guidelines issued in this regard. Notwithstanding the aforementioned time period, if based upon the registrations already granted, the projected financial liability reaches 115 percent of the Approved Funds, registration process may be paused, either temporarily or permanently. However, registration process may be resumed depending on availability of Approved Funds.
 - 4.1.** Merely submitting application for registration will not entitle any applicant for registration under this scheme. Further details shall be provided in the guidelines of this scheme.
 - 4.2.** No unit will have the right to register under this scheme or claim the benefits unless it is specifically approved by the registering authority as laid out in the guidelines.
 - 4.3.** The registration will be granted by the registering authority as laid out in the guidelines, which will, inter-alia, consider the prima-facie eligibility of the unit, availability of Approved funds.

4.4. All units willing to avail incentive(s) under this scheme have to apply for registration through the online portal.

5. **Grant of registration:** All applications for registration shall be disposed of by 31.03.2025 unless otherwise extended.

6. **Definitions:**

6.1. **'Approved Funds'** mean financial outlay allocated under each component of this scheme.

6.2. **'Arm's length price'** as defined under the provisions of Income Tax Act, 1961.

6.3. **'Commencement of Commercial Production:** means starting of manufacturing of finished goods on commercial basis which is preceded by trial production and installation of complete plant and machinery for manufacturing of finished products in commercial quantity and all raw materials, consumables, etc. required for manufacture are available.

6.4. **'Commencement of Commercial Operation:** means starting of operation/delivering of services on commercial basis.

6.5. **'Existing Unit'** means a unit which has commenced commercial production/operation prior to 1.4.2021 and is registered under GST in the UT of Jammu & Kashmir.

6.6. **'Finished Goods'** means the goods actually produced and supplied by an industrial unit and for which it is registered under the Scheme.

6.7. **'Manufacturing unit'** means a unit which carries out processing of raw material or inputs in any manner that results in emergence of a new product having a distinct name, character and use and the term "manufacturing unit" shall be construed accordingly."

6.8. **'New Unit'**

(a) For manufacturing sector means a unit registered under this scheme on or after 1.4.2021 but not later than 31.03.2025. Such unit has to commence commercial production within 3 years from the date of grant of registration.

(b) For Service sector means a unit registered under this scheme on or after 1.4.2021 but not later than 31.03.2025. Such unit has to commence commercial operation within 3 years from the date of grant of registration.

(c) A new unit will be required to fulfill the following conditions:

(i) It is not formed by splitting up, or reconstruction of a business already in existence.

(ii) It is not formed by transfer to the new unit of plant or machinery previously used for any other purpose.

(iii) It has not relocated from elsewhere and/or is not an existing unit reopened under a new name and style.

Provided that heritage property not in use before 1.4.2021 is restored thereafter for commercial or hospitality or tourism services on commercial basis will also be considered as new unit as per eligibility conditions to be further elaborated in detailed guidelines.

6.9. **'Plant and Machinery'** in case of Manufacturing units shall cover industrial plant and machinery as erected at site which are newly purchased from open market at an arm's length price. It excludes relocated/recycled/refurbished plant and machinery.

6.10. **'Building and other durable physical assets'** in case of Service sector units shall cover new building and other durable physical assets for a service sector unit where purchases have been made following an Arm's length pricing

- 6.11. **'Raw material'** means materials or substances used by any unit, in the production or manufacturing of the finished goods.
- 6.12. **'Services'** means anything other than goods, money and securities but includes activities relating to the use of money or its conversion by cash or by any other mode, from one form, currency or denomination, to another form, currency or denomination for which a separate consideration is charged.
- 6.13. **'Service unit'** means a unit providing "services".
- 6.14. **'Substantial expansion'** means an additional investment of minimum twenty-five percent of the total amount of investment already made in an existing unit in plant and machinery (for manufacturing sector), or construction of building and other durable physical assets (for service sector).
The additional investment should result in increase of production capacity/enhancement of Services or diversification and should not be a mere replacement of existing plant and machinery.
- 6.15. **'Unit'** means any industrial (manufacturing) entity or eligible service sector enterprise other than those run departmentally by Government, which is a registered business enterprise under Goods & Service Tax.
- 6.16. **'Working Capital'** is difference between Current Assets and Current Liabilities. It is the capital required for the smooth and uninterrupted functioning of the unit and is used to finance its day to day needs, such as buying raw materials.
- 6.17. **Zone A and Zone B** for the purposes of this scheme shall mean areas as defined by Government of Jammu & Kashmir and as specified in the guidelines.

7. Eligibility for availing incentives:

- 7.1. All units eligible under Manufacturing and eligible Service sector will be granted incentive(s) under this scheme as defined under respective incentives.
- 7.2. The scheme shall not be applicable to the units which manufacture the products listed in the **negative list** at Annexure -I.
- 7.3. Service sector units with a minimum investment of Rs.1 crore in building and other durable physical assets will be eligible for incentives under this scheme. The scheme shall be applicable only for services listed in **positive list** in Annexure-II which may be modified further by the Steering Committee.
- 7.4. All eligible units have to commence commercial production/operation within 3 years from the date of grant of registration.
- 7.5. Any investment made on or after 1.4.2019 by a unit in plant and machinery (for manufacturing sector) or construction of building and other durable physical assets (for service sector) will be taken into consideration to decide the eligible value of investment as per the entitlement under Capital Investment Incentive, Capital Interest subvention and GST Linked Incentive of this scheme. However, the date of commencement of commercial production/ operation has to be on or after 1.4.2021. The eligibility for availing any incentive is subject to grant of registration under the scheme.
- 7.6. (a) Cost of Plant and Machinery (in manufacturing sector) that is essential for manufacturing of finished goods but excludes cost of land, consumables, disposables or any other item charged to revenue.
(b) Cost of construction of Building and procurement of other durable physical assets for the service sector unit that are basic to the running of that particular unit in service sector

but excludes cost of land, consumables, disposables or any other item charged to revenue.

- 7.7. Units availing benefits under other schemes of the Government of India will not be eligible for similar incentives under this Scheme.
- 7.8. Subject to provisions of Clause 7.7, such units can avail other incentive(s) under the Scheme as per eligibility. Details regarding this shall be specified in the guidelines.
- 7.9. The beneficiary of this scheme has to furnish an undertaking to abide by the terms and conditions of the scheme.
- 7.10. Eligibility under this scheme will be subject to verification on investment (Core and Non-Core) in Plant and Machinery (in manufacturing sector) and cost of construction of building and other durable physical assets (in service sector). However, the incentive will be eligible only for core segment in both manufacturing and service sector. Details will be laid down in the guidelines.
- 7.11. **Period for availing incentive(s):**

All eligible units can avail specified incentive under this scheme up to a period as specified in the respective incentives.

8. Nodal agency

The Jammu & Kashmir Development Finance Corporation Ltd. (JKDFC) or any other agency authorized in this regard by Government of India will be the nodal agency for disbursement of incentives under various components of the scheme. Nodal agency will release incentive only through e-transfer to the designated bank accounts of eligible units.

9. Governance and Implementation Mechanism

- 9.1 The scheme will be implemented under the supervision of Government of India i.e. the Department for Promotion of Industry & Internal Trade (DPIIT). However, the registration process as well as processing of claims under different incentive components is delegated to the UT of Jammu & Kashmir. Details will be given in the guidelines for implementation of the scheme.
- 9.2 Committees constituted for governance and implementation of this scheme along with their Power and function are as under:

9.2.1 The Apex Committee

(a) Constitution

- (i) Union Home Minister as Chairperson
- (ii) Union Commerce and Industry Minister
- (iii) Lt. Governor of UT of J&K

(b) Powers and functions

- (i) Decide upon any modification in the scheme within its overall financial outlay which have not been specifically delegated under the power and function of other Committees.
- (ii) Approve any deletion in the negative list

9.2.2 The Steering Committee

(a) Constitution

- (i) Secretary, DPIIT as Chairperson
- (ii) Secretary/ Additional Secretary, Ministry of Home Affairs

- (iii) Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change
- (iv) Secretary, Ministry of MSME
- (v) Representative, NITI Aayog
- (vi) Additional Secretary and Financial Advisor (AS&FA), DPIIT
- (vii) Chief Secretary, Government of Jammu & Kashmir
- (viii) Joint Secretary, DPIIT in charge of J&K Schemes (Member Secretary)

(b) Powers and functions

- (i) Monitor the smooth implementation and issue detailed guidelines for execution including the different levels of delegation for registration and sanction of claims under the overall supervision of UT level committee.
- (ii) Decide on matters relating to registration, commencement of production/operation, including extension of the dates.
- (iii) Decide on the proposals for implementation, monitoring and IT support as per needs and contingencies under the administrative cost component including establishing of Project Management Unit at the level of DPIIT and Project Implementation Unit at the UT level.
- (iv) Utilize the services of Central Board of Indirect Tax and Customs (CBIC) and Central Board of Direct Taxes (CBDT) and to periodically invite appropriate officers like jurisdictional Chief Commissioners of GST, Income Tax and Commissioner of UT GST as Special Invitees, for seeking their inputs with particular emphasis on preventing fraudulent or non-genuine claims.
- (v) Get random/surprise inspections done to prevent misuse of the scheme through engagement of an independent third party or empanelment of qualified personnel for verification.
- (vi) Issue detailed guidelines on eligibility under service sector in consultation with the UT administration.
- (vii) Amend the categorization of blocks into Zone A and Zone B. However, this amendment in categorization shall be in alignment with the categorization of Blocks by the UT of Jammu & Kashmir
- (viii) Review and make additions to the negative list for goods and any changes to the positive list for services.

9.2.3 The Union Territory Level Committee

(a) Constitution

- (i) Chief Secretary, UT of Jammu & Kashmir as Chairperson
- (ii) Secretary of Finance, UT of Jammu & Kashmir
- (iii) Secretary of Industry & Commerce, UT of Jammu & Kashmir (Member Secretary)
- (iv) Joint Secretary (JS) DPIIT (or his representative)
- (v) Representative of Internal Finance Wing of DPIIT as member
- (vi) Any other member(s) representing the relevant sectors related to the projects under consideration may be nominated by the Chief Secretary or Secretary (Industry & Commerce) to the administration in UT of J&K as Special Invitees



(b) Powers and functions

- (iii) Monitor the overall implementation of the Scheme and put in place proper checks and balances for ensuring transparency and efficiency in grant of registration, processing and approval of claims under the Scheme.
- (iv) The Committee in coordination with the Department of Industries and Commerce, UT of Jammu and Kashmir shall ensure that proper checks and balances are in place to avoid misuse of the Scheme.

9.3 Details of further delegation of powers for granting registration of units, processing and sanction of claims will be prescribed in the detailed guidelines of the scheme.

10. Incentives under the Scheme

Subject to eligibility, the following incentives are provided under this scheme.

- (i) Capital Investment Incentive (CII).
- (ii) Capital Interest Subvention (CIS).
- (iii) Goods & Services Tax Linked Incentive (GSTLI).
- (iv) Working Capital Interest Subvention (WCIS).

10.1. Capital Investment Incentive(CII):**(a) Eligibility:**

- (i) The following units will be eligible to avail this incentive

- a. New units with investment of not more than Rs.50.00 (*Fifty*) crore in Plant & Machinery (for manufacturing sector) or Building and all other durable physical assets (for service sector) will be eligible to avail this incentive in both Zone A and Zone B.
- b. Existing units undertaking substantial expansion with investment of not more than Rs.50.00 (*Fifty*) crore in Plant & Machinery (for manufacturing sector) or Building and all other durable physical assets (for service sector) will be eligible to avail benefit under this incentive in both Zone A and Zone B.

- (ii) Subject to proviso in Clause 6.8(c), a unit will be eligible for this incentive only if it installs new plant and machinery (for manufacturing sector) or constructs new building and other durable physical assets (for service sector), where purchases have been made based on Arm's Length Pricing.

- (iii) A service sector unit will be eligible for this incentive only if it makes investment of not less than Rs. 1.00 crore in new building and other durable physical assets

- (b) All eligible units located in Zone A category blocks in the UT of Jammu & Kashmir will be provided Capital Investment Incentive @30% of the investment made in plant and machinery (for manufacturing sector), or for construction of building and installation of other durable physical assets (for services sector) with maximum limit of Rs. 5.00 crore.

- (c) All eligible units located in Zone B category blocks in the UT of Jammu & Kashmir will be provided Capital Investment Incentive @50% of the investment made in plant and machinery (for manufacturing), or for construction of building and installation of other durable physical assets (for services sector) with maximum limit of Rs.7.50 crore.

- (d) An existing unit can avail this benefit for substantial expansion only once during the validity period of the scheme.


- (e) A new unit registered under the scheme will not be eligible to avail the benefit under substantial expansion.
- (f) Physical verification of the units is mandatory before availing this incentive. However under special circumstances, on recommendations by UT, with due justification, Steering Committee may consider electronic modes, or any other method as deemed appropriate in lieu of physical verification.
- (g) Detailed procedure for registration and availing this incentive shall be laid down in the guidelines.

10.2. Capital Interest Subvention (CIS)

(a) Eligibility:


- (i) New units will be eligible for this incentive on the loan availed on investment made in eligible plant and machinery (for manufacturing sector), or construction of building and other durable physical assets (for service sector).
 - (ii) Existing units undertaking substantial expansion will also be eligible for the incentive as per clause 10.2(a)(i).
 - (iii) Interest on loan up to the principal amount of Rs. 500 crore for investment in eligible plant and machinery shall be eligible for Capital Interest subvention. If the total principal amount of loan (loan being defined as a whole and not as per draw-down amount in each tranche) is more than Rupees 500 crore, then interest on the loan amount exceeding Rs. 500 crore would **not be** eligible for Capital Interest Subvention.
 - (iv) The Capital Interest Subvention would be eligible on amount disbursed and not on the principal amount sanctioned for the term loan.
 - (v) A unit will be eligible for this incentive only if it installs new plant and machinery (for manufacturing sector) or constructs new building and installs other new durable physical assets (for service sector) where purchases have been made based on Arm's Length Pricing.
 - (vi) A service sector unit with an investment of not less than Rs. 1 crore in new building and other new durable physical assets will be eligible for this incentive.
- (b) All eligible units can avail Capital Interest Subvention at the annual rate of interest of 6% for a maximum of 7 consecutive years from any date after the date of application for registration under this scheme. However, disbursement of eligible amount under this incentive shall begin only after commencement of commercial production.
- (c) In future, if the annual rate of interest falls below 8%, an eligible unit will still be liable to pay a minimum amount of interest at the annual rate of interest of 2%. (Illustration: In future, in case the annual lending rate by a bank for an eligible unit falls to 7%, the amount of interest subvention will be limited to 5%, and the unit will bear 2% interest burden).
- (d) This incentive is applicable on the loans availed from a Scheduled Commercial Banks or Financial Institutions registered by Reserve Bank of India.
- (e) Detailed procedure for availing this incentive shall be laid down in the guidelines.

10.3. Goods & Services Tax Linked Incentive (GSTLI)

- (a) **Eligibility:** New units registered under the scheme irrespective of the value of investment in plant and machinery (for manufacturing sector) and construction of building and other durable physical assets (for service sector) and having a GST registration will be eligible for benefit under this incentive.
- 

- (b) Upper limit of incentive under this component shall be 300% of the eligible value of investment made in plant and machinery (for manufacturing sector) or construction of building and other durable physical assets (for services sector). The value of Plant and Machinery for manufacturing or building and durable physical assets in Services sector units will be as per the eligible value determined under Capital Investment Incentive or Capital Interest Subvention, whichever is applicable.
- (c) All eligible units will be granted Goods & Services Tax Linked Incentive (GSTLI) equal to 100% of Gross payment of GST, i.e. GST paid through cash and input tax credit for a maximum period of 10 years from the date of commencement of commercial production/operation or till the validity of the scheme whichever is earlier. However GST paid on exported goods or services will not be counted towards eligible incentive amount under this component.
- (d) The amount of incentive paid in a financial year will not exceed one-tenth of the total amount of eligible incentive under this component subject to full payment of GST as per GST return filed for the claim period.
- (e) The quantum of incentive will be the same irrespective of the fact whether the unit is located in Zone A or Zone B in the UT of Jammu & Kashmir.
- (f) In case gross GST paid by any unit in a financial year is more than one-tenth of the total amount of eligible incentive, the balance can be carried forward to the subsequent financial year(s). Further, in case the unit is not able to claim full eligible amount of incentives in the first 3 year, the same can be carried forward to subsequent years. However, this will not be carried forward beyond the eligible period of 10 years or beyond the validity of scheme, whichever is earlier.
- (g) In order to avail benefit under this incentive, a unit will be required to have a new registration number for GST. If an applicant has another unit registered within the UT of Jammu & Kashmir, existing GST number shall not be used for the new unit which has been registered under this scheme. (Illustration: If an existing unit 'A' starts another unit with name 'B' then GST number of unit 'A' will not be applicable for availing GSTLI for unit 'B'. A new GST number will be required by unit 'B' to avail GSTLI.)
- (h) Detailed procedure for availing this incentive shall be laid down in the guidelines.

10.4. Working Capital Interest Subvention(WCIS)

- (a) **Eligibility:** All existing units in the UT of Jammu & Kashmir registered under GST prior to the date of notification of this scheme will be eligible for this incentive, subject to the registration and other conditions as detailed in the guidelines.
 - (b) Units located both in Zone A and Zone B in the UT of Jammu & Kashmir are eligible for this incentive
 - (c) All existing eligible units can avail interest subvention @ 5% on working capital loan for a maximum of 5 consecutive years from the date of grant of registration under this scheme. Existing eligible units availing benefits under this component will be eligible for five years period, even when they are undertaking substantial expansion.
 - (d) In case, if the annual rate of interest charged by a bank falls below 6%, a minimum amount @1% per annum of interest will still have to be paid by the eligible units (Illustration: If in future, bank rate of interest for a unit becomes 5%, the interest subvention will be limited to 4% and the unit will bear the burden of 1% interest).
 - (e) The maximum benefit under this component for manufacturing as well as service sector units is Rs. 1 crore in 5 years. The methodology for calculation of the eligible amount of working capital interest subvention will be prescribed in the detailed guidelines issued there under.
- 

(f) Detailed procedure for availing this incentive shall be laid down in the guidelines.

11. Process of application for registration, claiming incentives, approval and disbursal of claims:

These shall be prescribed in the detailed guidelines to be issued separately.

12. Processing/ scrutiny of claims:

- 12.1. Claims filed under the scheme will be pre-scrutinized by recognized independent audit agency to be appointed by DPIIT.
- 12.2. JKDFC will undertake pre-scrutiny of 10% claims before disbursement of incentives. The Chief Controller of Accounts of DPIIT will also conduct post-audit of 20% of high value claims (i.e. Rs. 5.00 crore and above), 1% of Working Capital Interest Subvention claims released in each financial year and 5% of other claims.
- 12.3. All concerned Ministries/departments of Government of India are required to amend their respective Acts/Rules/Notification etc. and issue necessary instructions for giving effect to these decisions.

13. Rights of the Central/Union Territory(UT) Government of J&K /Financial Institutions:

- 13.1. In case any unit availing incentives under this scheme goes out of production/ operation permanently or changes location of the whole or any part of unit or disposes of a substantial part of its total fixed capital investment within 10 years after the date of commencement of production/ operation, then the unit will not be eligible to claim any incentive with effect from the date it goes out of production/ operation or changes its location.

Further, all such units will be liable to refund the entire grant or incentive availed if it goes out of production/ operation permanently or changes location of the whole or any part of unit or disposes of a substantial part of its total fixed capital investment within 5 years after the date of commencement of production/ operation.
- 13.2. If it is established that a unit has obtained incentive(s) by misrepresenting/suppressing an essential fact, furnishing of false information the unit has to refund the entire grant or incentive availed with interest of 15% per annum and will also be liable for criminal proceedings.
- 13.3. Concealment of input supplies or routing of third party or non-Jammu & Kashmir production for claims or malpractices of similar kinds will render unit liable for forfeiture of further claims and recovery of all previous incentive(s) paid with interest @15% per annum.
- 13.4. The incentive(s) will be released through digital payment and Nodal agency will collect all information required by the DBT Mission in respect of beneficiary units. Nodal agency shall take an affidavit cum indemnity bond in this regard from the authorized signatory of the beneficiary unit.
- 13.5. The Nodal agency shall furnish Certificate of Utilization of the incentive(s) in Form 12(C) of General Financial Rules, 2017 in respect of disbursements to the DPIIT within a period of 3 months from the date of receipt of the last installment/full amount.

14. No interest on account of delay in payment of incentive can be claimed by the unit

RAJENDRA RATNOO, Jt. Secy.



ANNEXURE-I**Negative List:**

The following industries will not be eligible for benefits under New Central Sector Scheme for Industrial Development of Jammu & Kashmir :

- (i) All goods falling under Chapter 24 of the Central GST Tariff Act, 2017 which pertains to tobacco and manufactured tobacco substitutes.
- (ii) Pan Masala as covered under Chapter 24 of the Central GST Tariff Act, 2017.
- (iii) Plastic carry bags of less than 20 micron as specified by Ministry of Environment and Forests Notification No. S.O. 705(E) dated 02.09.1999 and S.O. 698(E) dated 17.6.2003 and any subsequent amendments.
- (iv) Goods falling under Chapter 27 of the First Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986) produced by Petroleum or Gas refineries.
- (v) Plantation, Refineries and Power generating Units above 10 MW.
- (vi) Coke (including Calcined Petroleum Coke), Fly Ash.
- (vii) Units not complying with environment standards or not having applicable Environmental Clearance from M/o Environment & Forests and Climate Change or State Environmental Impact Assessments Authority (SEIAA) or not having requisite consent to establish and operate from the concerned Central Pollution Control Board/State Pollution Control Board also will not be eligible for incentive under the scheme.
- (viii) Low value addition activities in goods such as preservation during storage, cleaning, operations, packing, repacking or re-labelling, sorting, alteration of retail sale price etc. take place excluding high value packaging and processing.
- (ix) Gold and gold dore.
- (x) Molasses
- (xi) Marble, Travertine & Granite.
- (xii) Revolvers and pistols.
- (xiii) Any other industry/activity placed in negative list through a separate notification as and when considered necessary by the Government. It will be effective from the date of such notification.

Annexure-II

The following services, details of which will be given in guidelines, will be eligible for benefits under New Central Sector Scheme for Industrial Development of Jammu & Kashmir:

Service Sector Positive List	
1	Tourism & Hospitality Services (including health & wellness tourism)
2	Services promoting Film Tourism (including film cities, studios)
3	Ropeways, Entertainment Parks and Rides
4	Heritage Property Restoration Services



5	Healthcare Services
6	IT & ITeS Services
7	Maintenance and Repair Services
8	Freight Terminals, Logistics Parks & Warehousing (including Cold Store Services)
9	Testing, R&D, Analysis & Certification services
10	Educational & Skill Development Services

Am